िर्दा स्व वर्ष-04 अंक-22 मुरादाबाद, भारत सरकार से रजिस्टर्ड

प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीजीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा,अलीगढ़, संभल, श्रावस्ती,अलीगढ़ और उत्तराखंड

13 May, **2024** (Monday)

बेटों के आने की उम्मीद में रास्तों को तकर्ती मांओं की आंखें

ग्राम पंचायत खम्हारडीह के कोटेदार द्वारा राशनकार्ड

page 7

deer, oh deer

मूल्य- ०३ रूपये पृष्ठ-०८

बैरकपुर में रैली में बोले पीएम मोदी

टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में बम बनाने को एक कुटीर उद्योग बना दिया को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे पीएम मोदी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले



RNI NO.UPBIL/2021/83001

बैरकपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दोहराया कि राष्टीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देगा क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया समृह मुस्लिम समुदाय के लिए प्रयास कर रहा है। पीएम

स्कूलों के बाद अब अस्पतालों

को मिली बम से उड़ाने की धमकी

बम से उड़ाने की धमकी देने के बाद अब

दो अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी

मिली है। धमकी देने वाले ने इस बार भी

पुराने पैटर्न को दोहराते हुए ईमेल भेजा है।

दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की

धमकी देने के बाद अब दो अस्पतालों

को बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

धमकी देने वाले ने इस बार भी पुराने पैटर्न

को दोहराते हुए ईमेल भेजा है। शुरूआती

जानकारी के मुताबिक ये धमकी भरा मेल

संजय गांधी अस्पताल और बुरारी अस्पताल

के पास आया है। मौके पर पुलिस के

अलावा दमकल विभाग की टीम

अस्पतालों द्वारा शिकायत मिलने के बाद

मौके पर पुलिस के अलावा दमकल विभाग

डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंच गए हैं।

नई दिल्ली । दिल्ली में स्कूलों को

मोदी ने पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के औद्योगिक शहर बैरकपुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार अर्जुन सिंह के पक्ष में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जात (एससी) के लिए मौजुदा

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिववार को दोहराया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देगा क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया समूह मुस्लिम समुदाय के लिए प्रयास कर रहा है।

आरक्षण में कटौती से इनकार कर दिया। उन्होंने नागरिकता संशोधन (सीएए) को लागू करने के लिए प्रतिज्ञा व्यक्त की, जो उन शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए है जो दुनिया के अन्य हिस्सों से धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किये जाने के बाद भारत आए। मोदी ने संदेशखाली में महिलाओं पर अत्याचार और भ्रष्टाचार की श्रृंखला के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार खराब शासन के रूप में वर्णित किया। प्रधानमंत्री ने रैली में लोगों की उपस्थिति, विशेषकर महिलाओं की बढ़ती संख्या को देखने के बाद कहा,ह्लमैं इस बार 2019 की तुलना में बहुत बड़ा बदलाव देख सकता हं। मैं अगले पांच वर्षों में आम लागों के लिए गारंटर के रूप में खड़ा रहुंगा। उन्होंने तृणमूल सरकार पर घुसपैठियों के समर्थन पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में व्यवहार करने का आरोप लगाया। अपनी पांच गारंटियों के बारे में चर्चा करते हुए मोदी ने कहा कि कोई भी अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त करने और बंगाल में राम नवनी के दिन जुलूस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता।

इंडिया समूह पर तृणमूल और वाम दलों के साथ मिलकर राम मंदिर के खिलाफ कदम उठाने, धार्मिक आधार पर मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण और सीएए को निरस्त करने की वकालत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा,ह्लतृणम्ल कांग्रेस सरकार लोगों को भगवान राम का नाम लेने और राम नवमी मनाने की अनुमित नहीं देती है। तृणमूल कांग्रेस के शासन के दौरान बंगाल में हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक बन गए हैं और लोगों को डराने के लिए इसने राज्य में बम बनाने को कुटीर उद्योग बना दिया है। साथ ही,उन्होंने चेतावनी दी कि निकट भविष्य में प्रत्येक अपराध से सख्ती से निपटा जाएगा।

है और हम उसे लेकर रहेंगे : शाह कौशांबी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार व सांसद विनोद सोनकर के समर्थन में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित

पाक के कब्जे वाला कश्मीर भारत का



अब्दुल्ला जैसे नेता कहते हैं कि कौशांबी। भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान का सम्मान करो क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। उन्होंने (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अमित शाह कहा, आज मैं कौशांबी की जनता ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का को पूछने आया हूं कि ये जो पाकिस्तान अधिकत कश्मीर है, वो है और हम उसे लेकर रहेंगे। यहां भारत का है या नहीं है। भीड़ से कौशांबी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार व सांसद विनोद सोनकर सकारात्मक जवाब मिलने के साथ के समर्थन में आयोजित एक चुनावी ही गृह मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने यह बात कही। शाह ने तंज कसते कि राहुल बाबा आपको एटम बम से डरना है तो डरिए, हम नहीं डरते, हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता

करते हुए शाह ने यह बात कही। शाह ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता कहते हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। मणिशंकर अय्यर और फारूक

पाक अधिकृत कश्?मीर भारत का है और हम वो लेकर रहेंगे। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया। भारत रत्न नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया। बाबा साहेब से जुड़े पांच स्थानों को जोड़कर तीर्थ स्थान बनाया। उन्होंने पार्टी के उम्मीवार को लेकर कहा, मुझे लगा कि सोनकर तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए यहां आकर इन्हें तीसरी बार जिताने

की अपील करनी चाहिए।

राम द्रोहियों को है राममंदिर से बैर:



बहराइच । कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के प्यागपुर विधानसभा में उमड़ी भीड को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह पूरा चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच का हो गया है। जो क्या रामद्रोही कभी विजय हुआ है?

की पूजा करते ,कुंभकरण और मेघनाथ की पूजा करते। अयोध्या में अब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो गया है। हम 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को फोरलेन बनाने जा रहे हैं। जिसका सभी को लाभ मिलेगा। जो काम भारत में अयोध्या में हुआ वह दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। यह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तो

 सीएम योगी ने बहराइच और कैसरंगज की सभाओं को संबोधित किया। खास बात यह रही कि कैसरंगज के वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह को मंच पर जगह नहीं मिली।

मानते थे के अयोध्या में राम मंदिर कभी बन नहीं सकता। इसीलिए बहकाने के लिए सपा के लोग कहते थे कि परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता। सीएम योगी ने कहा कि राम मेंदिर बनने से दो ही लोग नाराज हैं या तो राम द्रोही या तो पाकिस्तान। बाकी पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहराइच में खानदानी राम भक्त हैं। यह वही भूमि है जिस भिम ने सोमनाथ मेंदिर के गुनहगार सालार मसुद को जहनुम में पहुंचाकर रक्षा की थी। हम लोगों ने स्मारक भव्य

बनाया है लेकिन ,समाजवादी ,कांग्रेस ने कभी स्मारक पर फूल तक नहीं चढ़ाया। यह लोग दरगाह में तो जाएंगे लेकिन महाराजा सहेलदेव के स्मारक पर कभी नहीं जाएंगे। क्योंकि इनको डर है कि अगर वहां जाएंगे तो कहीं मुस्लिम वोट ना खिसक जाए। यह लोग हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। पहले उन्होंने जाति के नाम बांटा फिर क्षेत्र और भाषा के नाम बांटा और आपकी प्रॉपर्टी पर भी इन लोगों की नजर हैं। सत्ता में आने पर वरासत टैक्स कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादा ने जो कमाया है उस संपत्ति में से आधी संपत्ति यह लोग जबरन समाजवादी पार्टी के गुंडे या फिर कांग्रेस के गुंडे हडपने का काम करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की डकैती कभी स्वीकार नहीं करेगी। कहा जा रहा हम आएंगे तो जातीय जनगणना करेंगे। जाति जनगणना क्यों करेंगे? यह इसलिए करेंगे कि हिंदुओं को आपस में लड़ा दे और फिर आपस में लड़ने के बाद हिंदुओं के आरक्षण का अधिकार मुसलमान को दे देंगे। मंच पर नजर नहीं है बृजभूषण कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पयागपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान यहां के प्रत्याशी करण भूषण सिंह उनके साथ मौजूद रहे। लेकिन भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने योगी के मंच पर नजर नहीं आए। बता दें कि अभी कछ दिन पहले बजभषण शरण सिंह ने सिर्फ पीएम मोदी को ही अपना नेता बताया था। उनके मंच पर न शामिल होना क्षेत्र में चर्चा का विषय

भाजपा पंजाब और दिल्ली में आप की सरकार गिराना चाहती थी: केजरीवाल

नर्ड दिल्ली। यही रणनीति थी कि वे मुझे गिरफ्तार कराएंगे, पार्टी तोड देंगे दिल्ली और फिर पंजाब में भी सरकार गिरा देंगे, लेकिन मेरी गिरफ्तारी के बात

उनकी यह रणनीति विफल हो गई। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पंजाब और दिल्ली में आप की सरकार को गिराना चाहती थी, लेकिन उसका यह



मकसद पूरा नहीं हो पाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यहां अपनी पार्टी के विधायको को संबोधित करते हुए कहा, मेरी गिरफ्तारी के बाद आप और अधिक एकजुट हो गई है। केजरीवाल ने कहा, मेरी गिरफ्तारी से पहले भाजपा के लोग कहते थे कि वे पार्टी तोड़ देंगे और दिल्ली तथा पंजाब में हमारी सरकार गिर देंगे। उन्होंने कहा, उनकी यही रणनीति थी कि वे मुझे गिरफ्तार कराएंगे, पार्टी तोड़ देंगे, दिल्ली और फिर पंजाब में भी सरकार गिरा देंगे, लेकिन मेरी गिरफ्तारी के बाद उनकी यह रणनीति विफल हो गई। आप सब टूटे नहीं। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस पर हादसा उम्मीद है कि 33 फीसदी महिला आरक्षण का लाभ

राज्यपाल पर लगे गंभीर आरोपीं पर भी मौन हैं मोदी:ममता

करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए है। उन्होंने आगे कहा, संदेशखाली को

की संदेशखाली को लेकर भाजपा की साजिश सार्वजनिक हो गई है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर संदेशखाली मामले को लेरक झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने राज्यपाल सीवी आनंद

बोल पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों पर चुप्पी साधने के लिए पीएम मोदी को घेरा। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को घेरा रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को शर्म

कोलकाता। रैली को संबोधित आनी चाहिए की संदेशखाली को लेकर भाजपा की साजिश सार्वजनिक हो गई



लेकर पीएम मोदी अभी भी झुठ फैला रहे हैं। उन्हें इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि भाजपा की साजिश अब सार्वजनिक हो गई है।₹ बंगाल की सीएम ने उस वीडियो का हवाला देते हुए पीएम मोदी को घेरा, जिसमें एक स्थानीय भाजपा नेता को यह कहते हुए सुना गया कि 70 से अधिक महिलाओं को टीएमसी के मजबत नेता शाहजहां शेख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए दो हजार रुपये मिले थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर 24 परगना में आज चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडे संदेशखाली की महिलाओं को डरा-धमका रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, इस मामले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख है और टीएमसी आरोपी को बचाने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की एक कर्मचारी द्वारा छेड़छाड़ के आरोप मामले में चुप्पी साधने के लिए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को घेरा।

हमीरपुर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी वाद्रा पर लोकसभा चुनाव न लड़ने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें चुनावी शुरूआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संसद में महिलाओं के लिए लाए 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकता है। ठाकुर ने एक साक्षात्कार में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाद्रा पर कांग्रेस का टिकट हासिल करने में नाकाम रहने को लेकर तंज भी कसा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांधी परिवार के सदस्यों का सिक्रय राजनीति में स्वागत है और वास्तव में कांग्रेस को कड़ी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि देश को संसदीय लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष चाहिए। राहुल गांधी पर अपनी पुरानी अमेठी सीट छोड़ने को लेकर



निशाना साधते हुए ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पड़ोसी रायबरेली भाग गए जिसका प्रतिनिधित्व निवर्तमान लोकसभा में उनकी मां सोनिया गांधी ने किया है। यह पुछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी को गंभीर न बताने वाली भाजपा प्रियंका गांधी को एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी मानती है, ठाकुर ने कहा कि इसका फैसला जनता करेगी। उन्होंने कहा, हम एक बेहतर और मजबूत विपक्ष चाहते हैं क्योंकि इससे सरकार को नियंत्रण में रखने और संतुलन बनाए

 ठाकुर ने एक साक्षात्कार में प्रियंक गांधी के पति रॉबर्ट वाद्रा पर कांग्रेस क टिकट हासिल करने में नाकाम रहने कं लेकर तंज भी कमा। केंदीय मंत्री ने कह कि गांधी परिवार के सदस्यों का सक्रिन राजनीति में स्वागत है और वास्तव में कांग्रेस को कड़ी मेहनत करनी चाहि। क्योंकि देश को संसदीय लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष चाहिए।

रखने में मदद मिलती है। मीडिया और विपक्ष लोकतंत्र की ताकत हैं क्योंकि वे सवाल पूछकर सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं। जो भी नेता आता है, हम उनका स्वागत करेंगे, चाहे सोनिया जी हों, राहुल जी या प्रियंका जी हों। परिवार के अन्य सदस्य भी आ सकते हैं, रॉबर्ट वाद्रा जी भी कुछ समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन राहुल गांधी उन्हें अहमियत नहीं दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाद्रा दोनों संसदीय चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन

ने वाद्रा दंपति पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। कोई टिकट मांग रहा है लेकिन उसे मिलता नहीं है। दसरा कहता है कि मैं महिला हूं और लड़ सकती हूं लेकिन उसे लड़ने के लिए टिकट नहीं मिल पाता। उम्मीद है कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो 33 फीसदी आरक्षण दिया है, वह जल्द ही प्रियंका जी के काम आएगा। प्रियंका गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के शीर्ष स्टार प्रचारकों में से एक हैं लेकिन वह खुद चुनाव नहीं लड़ रही हैं। उन्होंने 2019 के राष्ट्रीय चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव का पद संभाला था लेकिन उन्होंने अभी लोकसभा या राज्यसभा चुनाव नहीं

उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिला। ठाकर

अहमदाबाद के हंसमुख (32) उनकी पत्नी सीमा (30) एवं चाचा मोहनलाल (55) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार हंसमुख की बहन नीता

तीन की मौत और छह घायल

नई दिल्ली। हादसे में



(32), नीलम (26), चालक दिनेश (30) गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस पर रविवार सुबह सड़क हादसे में पति-पत्नी सहित तीन लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा बांदीकुई (दौसा) केऊंनबड़ा गांव के पास सुबह लगभग पांच बजे हुआ। बांदीकुई के थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि मार्ग पर अचानक गाय आने से तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई जिससे इसमें सवार लोग नुकसान का जायजा लेने के लिए उतरे तो पीछे से एक ट्रक ने उनके वाहन को टक्कर मार दी एक और अन्य ट्रक उन लोगों को कुचलता हुआ निकल गया। हादसे में अहमदाबाद के हंसमुख (32) उनकी पत्नी सीमा (30) एवं चाचा मोहनलाल (55) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार हंसमुख की बहन नीता (32), नीलम (26), चालक दिनेश (30) गंभीर रूप से घायल हो गए।

मुंबई। शिवसेना (उद्धव लोकतंत्र फलेगा-फूलेगा...अन्यथा देश को काले दिन देखने पड़ेंगे। अच्छे दिन

आ जाएंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री

क्लीनर की तरह शामिल कर रही

अगर मोदी सरकार को नहीं हराया गया तो काले दिन देखने पड़ेंगे: उद्धव ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि

बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि अगर मोदी सरकार को नहीं हराया गया तो देश को काले दिन देखने पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के बारे में ठाकरे ने अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि भारत के लोग अपने नेताओं के भविष्य का फैसला करेंगे। उन्होंने दावा किया, यदि मौजूदा सरकार को हराया जाता है तो देश का भविष्य शांतिपूर्ण होगा और

भ्रष्टाचारियों का संरक्षण ही मोदी की गारंटी है। उन्होंने दावा किया कि अन्य सभी राजनीतिक दलों और देश को भ्रष्ट लोगों से मुक्त किया जा रहा है क्योंकि भाजपा ने उन्हें अपने पाले में शामिल करके सुरक्षा का आश्वासन दिया है। ठाकरे ने कहा, भाजपा सभी भ्रष्ट लोगों को वैक्यूम

सोख लेता है।

है जो सभी धूल और गंदगी को

कभी नहीं आए लेकिन काले दिन

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. और इसने देश के लिए कई समस्याएं व्यापार में बढ़ोतरी हुई। विदेश मंत्री ने किया कि ऐसा परिदृश्य इसलिए जयशंकर ने कहा है कि भारत के घरेलू पैदा कीं। उन्होंने यह भी कहा कि कहा, हमें ख़ुद पर भरोसा करने की विनिर्माण और समग्र अर्थव्यवस्था को जरूरत है। मुझे स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय बढ़ावा देने से आर्थिक मोर्चे पर चीन के राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में साथ प्रतिस्पर्धा करने और वैश्विक स्तर प्रतिस्पर्धा है। हमारा चीन जैसा पड़ोसी पर देश के प्रभाव का विस्तार करने के है और हमें प्रतिस्पर्धा करना सीखना मद्देनजर विदेश नीति और अधिक होगा। उनकी यह प्रतिक्रिया तब आई मजबूत होगी। जयशंकर ने एक विशेष जब उनसे पूछा गया कि चीन के साथ साक्षात्कार में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र भारत का द्विपक्षीय व्यापार क्यों बढ़ मोदी के नेतृत्व में भारत पिछले 10 वर्षों रहा है जबिक नयी दिल्ली इस बात

में घरेल विनिर्माण को बढाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है क्योंकि 2014 से अतीत में विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान न पहले इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई थी दिए जाने की वजह से भारत-चीन

पर जोर दे रही है कि सीमा पर स्थिति असामान्य होने पर संबंध सामान्य नहीं हो सकते। जयशंकर ने दावा

उत्पन्न हुआ है क्योंकि 2014 से पहले विनिर्माण क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। भारत और चीन की सेनाओं के बीच मई 2020 से गतिरोध जारी है और सीमा विवाद का पूर्ण समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। जयशंकर ने कहा, अगर सीमा पर शांति नहीं है तो आप सामान्य संबंध कैसे रख सकते हैं। भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार में 2015 से 2022 तक 90.14 प्रतिशत की

Editorial

Testing times

The recent developments in Haryana's political circles have again brought to the fore the intricacies of coalition dynamics. The Jannayak Janta Party (JJP), a key player in the State's politics, has decided to align with the Congress in demanding a floor test for the BJP-led Government in the Haryana Assembly. This comes on the heels of the withdrawal of support by three Independent MLAs to the ruling coalition, turning it into minority with 44 legislators in the House of 90. The Congress, buoyed by the latest developments and perhaps sensing an opportunity to tip the scales in its favour, has seized upon this moment to mount pressure on the BJP Govern ment. However, in the backdrop of this high-stakes political manoeuvring, the JJP finds itself grappling with internal discord. Reports have emerged suggesting that three of its MLAs held clandestine meetings with former Chief Minister ML Khattar, raising eyebrows and fuelling speculation about potential defections. The appar ent dissonance within the JJP underscores the complex interplay of interests and ambitions that often characterises coalition politics. For a party like the JJP, which emerged as a key player following the fractured mandate in the last State elections maintaining cohesion within its ranks while balancing competing demands from its coalition partners is no easy feat. To jog the memory, it was in Haryana that 'Aaya Ram Gaya Ram' culture started, which continues unabated. The outcome of this internal tug-of-war will not only shape the immediate political landscape in Haryana but also have far-reaching implications for the State's future. As alliances shift and allegiances waver, the only constant is the relentless pur suit of power and the drive to stay one step ahead of the competition. With the House strength being 90 members, a political party needs the support of 46 MLAs to cross the halfway mark and form a Government. After the with drawal of support by three Independents, the BJP is short of two MLAs to continue in the Government. The BJP now has 40 MLAs, besides the support of a lone Haryana Lokhit Party legislator and at least three Independents (earlier, it had six Independents in support), which brings to a total of 44 in the House. For the BJP, it is a double whammy, all this is happening days ahead of the Lok Sabha polls to the 10 Haryana seats on May 25. In the 2014 Lok Sabha elections, the BJP won seven of these seats in Haryana with a 35 per cent vote share. In 2019, the BJP won all 10 seats with a 58 per cent vote share. In the current situation however, it might be a Herculean task JJP's Dushyant Chautala has mounted pressure on the Nayab Singh Saini Government for a floor test, which he is likely to get the Chair's nod for. If the JJP breaks, it would give the BJP the much-needed elbow room but what is certain for now is that it is time for horse trading in Haryana.

Battle to save India's biodiversity

India, a land of diverse climates and rich ecosystems, is a global treasure trove of biodiversity. From the majestic Himalayan ranges to the vibrant coastal reefs, our country's biodiversity sustains countless life forms and plays a crucial role in regulating ecosystems. It's not just a vital resource for human sustenance, providing food, water, shelter and medicine, but also a critical indicator of our planet's health, a testament to our rich heritage and a responsibility we all share. However, the delicate balance of India's biodiversity is now facing unprecedented threats from climate change. Recent studies warn that India may lose a staggering 35 per cent of its GDP by the year 2100 due to climate change, highlighting the deep interconnection between the nation's prosperity and its natural heritage. Rampant deforestation and habitat degradation, particularly in regions like the Western

Ghats, are pushing car-

bon sinks towards becoming sources, exacerbating the climate cri-

being and planetary health, focusing strongly on interactions between climate,

could cut global income by up to 19 per cent in the next 25 years, with the most vul-



isow.Impact of Climate Change: A Looming CrisisThe repercussions of climate change are becoming quite evident in altering ecological balance, extreme weather events and increasing health risks. In an era marked by escalating environmental challenges, the climate crisis demands urgent and concerted action. According to [i]United Nations' InterGovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report, climate change is imperilling human well-

biodiversity and human society. The report suggests that the rise in extreme weather conditions has led to some irreversible impacts as natural and human systems are pushed beyond their ability to adapt.Not only this, a report by the Reserve Bank of India highlights how climate change poses challenges for monetary policy, with frequent weather shocks threatening economic growth and stability. Moreover, a recent study predicts that climate change

nerable countries suffering the most severe impacts.To overcome these challenges, India has embarked on a journey to mitigate climate change and safeguard its biodiversity. With the G20 presidency last year, India has positioned itself as the voice of the Global South to lead the way in climate action and leveraged this positioning to drive impactful outcomes in various realms related to climate action. Tackling deforestation, reducing emissions and restoring ecosystems are key strategies. With over 26 per cent of the country grappling with expanding drought conditions, urgent measures are being taken to build resilience against environmenta degradation. Pioneering Climate ActionTamil Nadu, a coastal State in the heart of southern India, is emerging as a beacon of hope and leading the charge in climate change efforts. The State has become a forerunner in climate action by announcing three major missions, Climate namely Change; Biodiversity Conservation Greening; and Wetlands. Through initiatives like the Tamil Nadu Biodiversity and Greening Project (TBGP), the State aims to achieve a 33 per cent forest and tree cover by 2031. With approximately \$90 million in investments, Tamil Nadu's Climate Change Mission, Green Tamil Nadu Mission and Tamil Nadu Wetlands Mission demonstrate a commitment to sustainable develop-

ment and ecosystem

restoration.Driving Solutions: Addressing the climate crisis necessitates collaborative efforts from all stakeholders. Supported by startups and Government interventions, public-private partnerships are essential to drive innovation and scale climate solutions. Startups are pivotal in developing innovative technologies that reduce carbon footprints while contributing to economic growth. International collaboration, exemplified by agreements like the Paris Agreement, provides a framework for collective action on a global scale. India's leadership in renewable energy, particularly through initiatives like the International Solar Alliance (ISA), underscores its commitment to driving sustainable development and fostering a harmonious coexistence between humanity and nature. As India addresses the intertwined challenges of climate change and biodiversity loss, the steps taken today will shape the legacy for future generations.

Xi embarks on a strategic journey across Europe, a move laden with symbolism

Geo-political adjustments are getting done, bilaterally and plurilateral, even as the world's largest democracies are busy calming their domestic constituencies, where a key rallying agenda is China. The two largest democracies, India and the US, both of whom have their own set of issues with China, are in the middle of some of the most competitive election processes, ever seen across the globe. Meanwhile, the EU, or at least many of its member countries, not to mention US allies such as Australia are carefully recalibrating the entangled web of engagement with China.It is by no coincidence that Chinese Premier Xi Jinping, was on a strategic three-nation

tour of Europe, earlier this week. This tri-nation tour, during which the Chinese premier, also met the European Union president Ursula Von der Leyen, comes after a gap of almost 5 years and is also a time when many European nations have been blaming China for pushing highly subsidised electric vehicles into their markets, making several European auto factories redundant. The Europeans also wanted to focus on China playing a larger role in stabilising its "friends without limits "Russia, in the war against Ukraine, pushing up fuelinflation aided across the region. The Europeans in the plain speak, they are known for, out-

lined clearly in the

president's press statement, "the first topic where we exchanged views on was the geopolitical situation. We especially discussed Ukraine and the conflicts in the Middle East. We agree that Europe and China have a shared interest in peace and security.We count on China to use all its influence on Russia to end Russia's war of aggression against Ukraine. President Xi has played an important role in de-escalating Russia's irresponsible nuclear threats, and I am confident that President Xi will continue to do so against the backdrop of the ongoing nuclear threats by Russia. We have discussed China's commitment not to provide

any lethal equipment to Russia. More effort is needed to curtail the delivery of dual-use goods to Russia that find their way to the battlefield. And given the existential nature of the threats stemming from this war for both Ukraine and Europe, this does affect the EU-China relations. "The message from the EU to China was, don't help Russia in its unjust war on European soil, or else the bilateral relation would be in trouble. No surprises, Ukraine and the Middle East didn't feature, till the bottom three paragraphs of the press statement issued by the Chinese team, post the trilateral meeting. Also no surprises with the language

dent Xi pointed out that China, France and the EU all wish to see an early ceasefire and return of peace in Europe, and support political settlement of the crisis. China has been working vigorously to facilitate talks for peace. China's objective and just position and its constructive role have been widely recognized by the international community. China is ready to stay in communication with relevant parties." The other significant element of these conversations was traded, as all parties involved are feeling the constraints of escalating fuel costs, the volatile geo-political environment and, the post-Covid, supply chain mismatch. The EU provided sharp pointers on which read "On the Chinese subsidised Ukraine crisis, Presiproducts, free and fair

access to each other's markets and supply chain resiliency in their conversations. A defensive China maintained that the two sides have extensive common interests and broad space for cooperation in green and digital transition. It is necessary that they properly address economic and trade frictions through dialogue and consultation, and accommodate each other's legitimate concerns." China has started making, the right moves to woo back some of its largest market partners, at a time when India and the US, the other key stakeholders in the Indo-Pacific theatre, are busy with their elections. India will get over elections in about a month, and an agile nimble China policy outlook awaits.

बेटों के आने की उम्मीद में रास्तों को तकतीं मांओं की आंखें



मुरादाबाद। आज मां का मेरा बेटा मुझसे मिलने जरूर स्थित वानप्रस्थ आश्रम में रहने जो सालों से किसी न किसी

दिन यानि मातृ दिवस है, आज आएगा। यह शब्द बुद्धि विहार वाली उन वृद्ध माताओं के थे वजह से अपने जिगर के टुकड़ों

से दूर रह रहीं हैं। इसी उम्मीद के साथ आश्रम में रह रही महिलाएं अपने-अपने बेटों की बात साझा कर रही थीं। बातें उन्हीं की जुबानी सुनी तो कुछ माताओं की कहानी पर आंखों से आंस्र बहने लगे। बेटों से दूर रहने वाली कुछ मजबूर माताओं ने फिर भी अपने बेटों की तारीफ नहीं छोड़ी। किसी ने बताया कि वैसे तो बेटा आता नहीं, शायद मातृ दिवस पर उसे मेरी याद आ जाए। तो किसी ने बताया कि मैं अपनी मर्जी से यहां रहती हूं तो कोई कहने लगी मेरा बेटा मेरे लिए पैसे भेजता है। पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता यह आरती की चंद लाइनें वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाली माताओं ने सही साबित कर दी। जहां रविवार को मातृ दिवस मनाया जाएगा, वहीं आश्रम में रहने वाली माताओं को भी इंतजार है। वानप्रस्थ आश्रम में मातृ दिवस पर जरूर आएंगे।

कुल मिलाकर 26 वृद्ध महिला, पुरुष रहते हैं। जिसमें 13 पुरुष और 13 महिलाएं रह रही हैं। सुषमा चड्डा पत्नी स्वर्गीय पवन कुमार चड्ढा पिछले ढाई साल से आश्रम में रह रही हैं। वह म्ल रूप से दिल्ली के निजामुद्दीन की रहने वाली हैं। उनकी दो बेटियां हैं। कोई बेटा के कसीदे पढ़ने में कोई कसर न होने के कारण वो दोनों पति–पत्नी आश्रम आकर रहने लगे थे। अब से डेढ़ साल पहले उनके पति का आश्रम में देहांत हो गया था। उनकी दोनों बेटियां मुरादाबाद में ही रहती हैं। उन्होंने बताया कि उनके बेटे नहीं है, लेकिन जिनके बेटे हैं वो भी उनसे दूर हैं। बेटों की कमी आश्रम में आकर अब नहीं खलती। प्रमिला गुप्ता के पति रमेश गुप्ता अब इस दुनिया में नहीं है। वह मूलरूप से मुरादाबाद के मंडी चौक चौराहा गली की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि उनके दोनों बेटे अपने-अपने बेटों के आने का बिजनेसमैन हैं। वो दोनों आज

करती है। उसी तरह नन्ही सी

चिडिया ट्रस्ट की तरफ से बच्चों

के प्रति मोहब्बत और अपनेपन

का अहसास जाहिर किया है।

भाजपा नगर विधायक रितेश गुप्ता

की पत्नी व नन्ही सी चिडिया

ट्रस्ट की अध्यक्ष अल्पना रितेश

गुप्ता ने बताया की पिछले कई

सालों से वे और उनकी टीम

नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट के बैनर

तले गरीब बच्चों की शिक्षा को

बढावा देने के साथ ही उनकी

अन्य जरूरतों का भी ख्याल

रखती है। वह हर साल लगभग

200 से अधिक बालिकाओं की

फीस वितरण का कार्यक्रम करती

हैं। उन्होंने बताया की सरकार

की मंशा के मुताबिक हर वर्ग के

आखिरी पायदान तक सरकार

की योजनाओं का लाभ पहुंचाने

वैसे तो हर मंगलवार को आते हैं। बात करते-करते उन्होंने बेटों की बदनामी न हो, इसलिए अपने मन से आश्रम में रहना स्वीकार किया। कहा कि कोई अपनी खुशी से आश्रम में अपना बुढ़ापा नहीं गुजारता। कोई न कोई ऐसी बात होती है, जिससे बेटों से दूर रहना पड़ता है। आदर्श शर्मा पत्नी रामेश्वर शर्मा 13 साल से आश्रम रहती हैं। वैसे मुल रूप से निकटतम जिले संभल के मोहल्ला कोर्ट पूर्वी रामलीला मैदान की रहने वाली हैं। उनके दो बेटे हैं। जिसमें एक हादसे का शिकार होने के कारण शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। दोनों बेटे मुरादाबाद लाइनपार में रहते हैं। जिसमें छोटे बेटे ने घर बना लिया है वह कभी-कभी मिलने भी आता है। बीमार होने पर दवा भी दिलवाने आता है। लेकिन बहू के व्यवहार से उसके साथ नहीं रह पाए। अब काफी साल से यहां रहते हैं तो अब मन यहीं लगता है। सबकी बात सुन

अंत में बीना रस्तोगी पत्नी अमरनाथ रस्तोगी बोलीं कि मैं 2016 से आश्रम में रह रही हूं । वैसे मैं बरेली जनपद के मूलकपुर सिटी की रहने वाली हूं। मेरा बेटा मनीष रस्तोगी है। जिसको लेकर उनके मन में भरा गुस्सा फूट गया। कहा कि वो आज मातृ दिवस पर भी नहीं आएगा, वो आया भी तो मुझे उससे नहीं मिलना है। बेटे ने बहू के पिता के साथ मिलकर मेरे पति को धोखा देकर मकान नाम करा लिया। जिससे मेरे पति भी नहीं रहे। अब मुझे आश्रम में रहना पड़ रहा है। उसके पास भी मकान नहीं रहा, फर्नीचर का काम भी उनका खत्म हो गया कभी-कभी किसी किसी का दिल भर आता है तो... सभी लोग किसी न मजबूरी में यहां रहने आते हैं यहां के माहौल में घुलमिल जाते हैं। सभी लोग आपस में प्यार पूर्वक एक दूसरे का दुख बांटने की कोशिश करते हैं। हां, पर कभी-कभी किसी किसी का दिल भर आता है तो सब मिलकर उसे

घर में घुसकर दुष्कर्म करने की कोशिश, रात में ही थाने पहुंचे थे दंपती

मुरादाबाद,। नागफनी थाना क्षेत्र में एक किसान परिवार के घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला



सामने आया है। इस मामले में महिला ने नवाबपुरा के राजपाल बबलू, राजू और रमेश के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि घटना बुधवार देर शाम की है। उसके घर राजपाल आया था और उसके पति के बारे में पूछने लगा। महिला ने उसे अपने पित के खेत पर जाने की बात बताई थी। फिर आरोपी उसके घर से लौट गया। इसके बाद रात 10 बजे के दौरान राजपाल अपने तीन अन्य साथियों के साथ महिला के घर में घुस आया और गलत नीयत से उसे पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। आरोपी उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगे थे। जिस पर महिला ने विरोध किया तो उसे मारा पीटा। बाद में लोगों के आ जाने पर आरोपियों ने उसे छोड़ा घटना की जानकारी महिला ने खेत पर अपने पति को भिजवाई इसके बाद जब उसका पति खेत से आया तो उसने पूरी बात बताई और रात में ही दंपती नागफनी थाने पहुंचे थे। लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और न ही कार्रवाई की। फिर दूसरे दिन महिला और उसका पति वरिष्ठ पूलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसएसपी के सामने पेश हुए और घटना बताई। एसएसपी हेमराज मीना के निर्देश पर नागफनी थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज की है। थानाध्यक्ष चमन सिंह ने बताया कि ये मामला मारपीट का है। महिला ने एसएसपी के यहां पेश होकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई करेंगे।

ट्क ने कार में मारी टक्कर, बाल-बाल बचा परिवार

चंदौली। जिला मुख्यालय स्थित नए सरकार की कुटिया के पास शनिवार को दोपहर में हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है। वाराणसी निवासी हरेंद्र दुबे (40) अपनी पत्नी रीता देवी (35), बेटी अक्षिता (8), मेघा (19) और अनन्या (18) के साथ अपनी कार से ससुराल बिहार के कोचस बिहार जा रहे थे। कार पीयूष पांडेय (36) चला रहा था। दोपहर दो बजे नए सरकार की कुटिया के पास तेज रफ्तार ट्रक ने कार में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई लेकिन उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित थे। मौके पर जुटे लोगों ने कार में सवार लोगों को बाहर निकला सदर कोतवाल गगन राज सिंह ने बताया कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दोनों वाहनों को पुलिस के कब्जे में ले लिया है।

क्यूँ न लिखूँ सच

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए0एच0प्रिंटर्स, ए-11, असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी,डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा

मो. 9027776991 RNI NO- UPBIL/2021/83001

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

क्यूँ न लिखूँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है।

नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट ने उठाया जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, डीएम-एसएसपी ने की सराहना

मुरादाबाद,। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने पंचायत भवन सभागार में दीप प्रज्वलित कर नन्हीं सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा आयोजित छात्राओं के फीस वितरण समारोह का आरंग किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि ट्रस्ट द्वारा गरीब परिवार की बेटियों की पूरे वर्ष की फीस जमा कर बेटियों को पढ़ाने एवं आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। यह सराहनीय है। इसके लिए संस्था के अध्यक्ष एवं सदस्यों को बधाई दी। साथ ही उपस्थित सभी बेटियों को शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संस्था निरंतर इसी तरह का नेक कार्य बेटियों के हित में आगे भी करती रहेगी। संस्था के सौजन्य से जिलाधिकारी द्वारा 15 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को लगभग 200 छात्राओं के पूरे वर्ष की फीस के प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस उपस्थित रहे। वहीं मंच से करते हुए नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट राय पेश की। उन्होंने कहा जिस



अधीक्षक हेमराज मीना. नन्ही सी एसएसपी हेमराज मीना ने बच्चों की सराहना की। उन्होंने मां और तरह मां बच्चों के लिए समर्पित ट्रस्ट के अध्यक्ष व सदस्य और उनके अभिभावकों को संबोधित बच्चों के बीच के रिश्ते पर अपनी होती है, उनका ख्याल रखती है।

से लेकर शिक्षा को बढावा देने के लिए उनकी संस्था काम कर उनके सुख-दुख का अहसास रही है।

राजिमस्त्री का शव पहाड़ पर मिला

चित्रकूट। तीन दिन पूर्व घर से निकले राजिमस्त्री का शव पहाड़ पर मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिजनों व पुलिस को दी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उधर, शरीर काला पड़ने व पास में मिले जहर के पैकेट से आशंका है कि उसने जहरीला पदार्थ खाया है। भरतकूप थाना क्षेत्र के हरिहपुर निवासी बद्री प्रसाद ने बताया कि छोटा भाई जगदीश विश्वकर्मा (46) बीमार रहता था। सात मई की सुबह वह घर से शौच के निकला था। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। शुक्रवार को घर से दो किमी दूर मवई पहाड़ पर उनका शव पड़ा मिला। लकड़ी काटने जंगल गए ग्रामीणों ने शव देखा। शिनाख्त होने पर इसकी सूचना परिजनों को पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे जगदीश की पत्नी प्रवीना ने कपड़ों से शिनाख्त की। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था। परिजनों ने बताया कि वह अक्सर घर से निकल जाया करता था और तीन चार दिन बाद घर आता था। इसीलिए पुलिस सूचना भी नहीं दी थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पत्नी प्रवीना देवी का रो-रोकर हाल बेहाल है। थाना प्रभारी प्रवीण सिंह ने बताया कि घटनास्थल से जहरीले पदार्थ का पैकेट मिला है।ऐसे में शक है कि जगदीश ने बीमारी से परेशान होकर जहर खा लिया हो।पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत के कारण की सही जानकारी नहीं हुई है। उसका बिसरा जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है।

गहुं में गिरकर बाइक सवार दो युवक घायल

मिजार्पर। बरात से घर वापस लौटते समय जुडिया गांव के पास शनिवार को सुबह बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में चली गई। इस हादसे में बाइक 20 फीट नीचे जाने से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को उपचार के लिए एंबुलेंस से सीएचसी मड़िहान भेजवाया गया। वहां से दोनों को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। मड़िहान थाना क्षेत्र के रैकरा गांव से शुक्रवार की शाम राजगढ थाना क्षेत्र के सेमरा बारहो गांव में बरात गई थी। रैकरा गांव निवासी अभिनंदन (18) तथा उसके साथी जुड़िया गांव निवासी संदीप (20) बरात में शामिल होने बाइक से गए थे। शनिवार को सुबह बरात विदा होने पर दोनों बाइक से घर लौट रहे थे।

महिला का ऑटो में छूटा बैग, सर्च ऑपरेशन में मिली सफलता



मुरादाबाद,। लखनऊ की महिला का ऑटो में बैग छूट गया, उसमें ज्वैलरी व कपड़े थे। परेशान महिला ने पुलिस को खबर की। फिर साढ़े छह घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को सफलता मिली। ऑटो को खोजकर उसका बैग बरामद किया और उसमें रखी ज्वैलरी-कपड़े पाकर महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने गलशहीद थानाध्यक्ष सौरम त्यागी और उनकी टीम को कई बार में कहा...थैंक्यू सर! तबस्सुम जहां पत्नी अब्दुल रहमान ने बताया, वह लखनऊ के थाना हुसैनाबाद क्षेत्र में क्लॉक टॉवर के पास की रहने वाली हैं। वह अपनी दो बहनों के साथ संभल जा रही थीं। संभल में उनकी छोटी बहन की ननद की मंगनी है। सुबह 9.45 बजे मुरादाबाद रेलवे जंक्शन पर उतरी थीं।

अड्डा पहुंची थीं, जहां ऑटो वाले को भाड़ा देने के समय बैग उसी में भूल गईं। जब याद आया तो ऑटो निकल चुका था। बैग में करीब डेढ़ तोला सोने की ज्वैलरी और कपड़े थे। परेशान तबुस्सुम रोडवेज पुलिस चौकी पहुंची और घटना बताई। इसके बाद थानाध्यक्ष सौरभ त्यागी मौके पर पहुंचे। पीड़िता से प्रारंभिक जानकारी लेने के बाद उनकी दोनों बहनों को संभल भेज दिया। इसके बाद थानाध्यक्ष ने ऑटो की पहचान करने के लिए पीड़ित महिला को साथ लेकर रेलवे स्टेशन के सामने दिल्ली रोड पहुंचे और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला। फुटेज में ऑटो की पहचान हो गई। जिसके आधार पर वह ऑटो मालिक के घर लंगड़े की पुलिया पहुंचे, जहां पता चला उसने

फिर ऑटो से वह रोडवेज बस अपना ऑटो बेच दिया था।

संक्षिप्त खबरें

आघाड़ी ने चुनाव प्रचार का जुलूस

निकाला जिसमें हजारों लोग शामिल हुए स्थान..... Vasai West में बहुजन विकास आघाड़ी ने

वुनाव प्रचार का जुलूस निकाला जिसमें हजारों लोग शामिल



हुए । KNLS के संवाददाता ने टेंप अध्यक्ष नंद किशोर से पूछा कि आप भाजपा शिवसेना कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं मगर जीतने के बाद जो भी सत्ता में आता है आप उसी की तरफ हो जाते हो तो लड़ाई कैसी??? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था दूसरे कारीयाकरता से यही पूछा तो उसने कहा विकास के लिए तो मैंने कहा कौन सा विकास ??? सड़कें गटर पानी की समस्याएं तो वहीं की वहीं हैं!!!

तो वह बिना जवाब दिए वहां से खिसक दिए एस एस राजू पालघर महाराष्ट्र

सुरक्षा कर्मियों के कंधों पर लोकसभा चुनाव

एंकर फर्रुखाबाद जिले में निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान कराए जाने को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की है,फर्रुखाबाद में



1400 मतदान केंद्र व 1940 मतदेय स्थल हैं व 15 जोन और 132 सेक्टर जिनपर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं इस बार लोकसभा के चुनाव में 15 27 मतदेय स्थल पर कुल 17 47 177 मतदाता मतदान करेंगे इसमें 935345 पुरुष व 804460 महिला मतदाता हैं इसके अलावा 40 किन्नर मतदाता हैं। इसमें एटा जनपद की अलीगंज विधानसभा के 350548 मतदाता भी सामिल हैं मतदान को बढाबा देने के लिए सभी विधानसभाओं में 39 विशेष बूथ बनाये गए हैं इसमें सभी विधानसभा में 5— 5 मांडल बूथ 2— 2 सखी बूथ, युवा बूथ व दिव्यांगों को अलग बूथ बनाये गए हैं। स्वरक्षा व्यबस्था की बात करें तो जनपद में 63 कलस्टर (मोबाइल) टीमें,28 क्यूआरटी,15जोनल मजिस्ट्रेट 132 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। अर्ध सैनिक बल की 14 मोबाइल टीमें लगाई गई है 182 कृटिकल बूथ चिन्हित किये गए हैं। कृटिकल मतदान केंद्र पर अर्ध सैनिक बल तैनात रहेगा।

भीषण गर्मी मे घरों मे लग रहे ए सी बढ़ी बिजली की चोरी

घरों में कनेक्शन है एक किलो वाट का और लोड चल रहा पांच किलो वाट का.

बड़े पैमाने पर नगर के तमाम मोहल्लो मे बाई पास से

कोंच(जालीन) इस समय भीषण गर्मी पडने के कारण अब लोग इस गर्मी से परेशान है और गर्मी के चलते अब कस्बे के तमाम मोहल्लो मे वाई पास से बिजली चोरी होने की खबरे मिल रही है मिली जानकारी में नगर के मोहल्ला जय प्रकाश नगर प्रताप नगर लालपत नगर गाँधी नगर जवाहर नगर भगत सिंह नगर आजाद नगर तिलक नगर आराजी लेंन मालवीय नगर गोखले नगर पटेल नगर नया गाँधी नगर और नया पटेल नगर आदि एरिया मे इस समय बिजली की चोरी हो रही है बताया गया है की इन मोहल्लो में बिजली के कनेक्शन तो लोग लिये है लेकिन अधिकांश बडे सम्पन घरों के लोग वाईपास से बिजली चोरी कर रहे है और इन घरों में एसी एयर कंडीशनर लग गए है जो बिजली का लोड बढ़ कर चोरी की जा रही है जब की कनेक्शन दो किलो वाट का है और लोड पांच किलो वाट चल रहा है नगर मे कई ऐसे उपभोक्ता है जो कनेक्शन तो लिए है लेकिन कट करके तो कोई पोल से ही कटिया डालकर बिजली की चोरी कर सरकार के राजस्व को चूना लगा रहे है कई जगहो पर इस समय बिजली की चोरी दिनके समय के साथ साथ अब रात मे की जा रही है बिजली चोरी के लोग नायाब तरीके से चोरी कर रहे है अब भीषण गर्मी मे जिन घरों मे पंखे चलते थे उन घरों मे अब कूलर चल रहे है और जिन घरों मे कूलर चल रहे थे अब उन घरों मे ए सी चल रही है और घरों का लोड बढ़ गया अगर यही हाल रहा तो बिजली की आपूर्ति निश्चित रूप से गडबड हो जायेगी विभाग को अब बिजली की चेकिंग की आवश्यकता है चेकिंग के साथ चोरी पकड़ मे आयेगी और राजस्व की बढ़ोत्तरी भी होने लगेगी फिलहाल विभाग को बिजली चोरी पकडने के लिये डोर तो डोर सघन अभियान चलाना होगा और बिजली चोरी कर रहे चोरो पर सख्त कार्य

खेड़ा चौकी के प्रभारी जितेंद्र सिंह चंदेल ने शराब संग गिरफ्तार किया

कोंच(जालीन) कोतवाली के खेडा चौकी के प्रभारी उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह चंदेल मय हमराही कांस्टेबल आलोक दुबे के द्वारा गस्त कर रहे थे तभी अनीस कुरैशी पुत्र जाफर कुरैशी निवासी मोहल्ला आराजी लाइन कस्बा व थाना कोंच को बीस लीटर शराब के संग पकड़ कर गिरफ्तार किया है संबंधित मु०अ०सं0-101/24 धारा 60आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया है पुलिस के मुताबिक पकड़े गए इस अभियुक्त का अपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ कोतवाली मे आर्मस एक्ट और लड़ाई झगड़ा को लेकर मुकदमा दर्ज है

जन समर्पण सेवा ट्रस्ट एवं जगत बन्धु सेवा ट्रस्ट शामली द्वारा निशुल्क कैंसर जांच शिविर आयोजित

अपना प्रदेश



शामली। आज शामली में समर्पण सेवा ट्रस्ट एवं जगत बन्ध् सेवा ट्रस्ट शामली के सौजन्य से शिव शक्ति वाटिका (मयूर हॉल) में निशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अजीत तिवारी कैंसर विशेषज्ञ श्री महंत इन्द्रेश अस्पताल (देहरादून) से उपस्थित रहेस डॉक्टर तिवारी जी के द्वारा सभी प्रकार के कैंसर की जांच निशुल्क की गई स शिविर में 85 मरीजों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 47 मरीज ने निशुल्क कैंसर की जांच कराई गई। कैम्प में मुख्यतः मुँह के कैंसर के मरीजों की संख्या अधिक रही एवं दो मृंह के कैंसर पांच फेफड़ों के कैंसर एवं तीन पित की थैली के कैंसर से ग्रस्त मरीज शिविर में निःशुल्क उपचार लेने के लिए आए। शिविर का आयोजन रजनीश नामदेव सचिव जन समर्पण सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से किया गया। डॉक्टर अजीत तिवारी जी के द्वारा क्षेत्र से आए

मरीजों के तीमारदारों को भी कैंसर के प्रति जागरूक किया एवं प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करने का भी आग्रह किया। डॉ अजीत तिवारी जी के द्वारा बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कैंसर का उपचार संभवत निशुल्क है। संस्था के अध्यक्ष अमन नामदेव के द्वारा निःशुल्क कैंसर कैम्प की सबको जानकारी उपलब्ध करायी। कैम्प में ट्रस्ट सदस्यों के साथ-साथ सैकड़ों की संख्या

भाजपा नगर अध्यक्ष सुनील लोहिया ने पत्नी संग घर घर वोट मांगे



रिपोर्टर – पवन कुमार कोंच(जालौन) पटेल नगर के वार्ड नं 13 में वूथ अध्यक्ष अभिनव सिंह गहलोत के आवास से भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह वर्मा जी के समर्थन में घर घर जाकर जनसंपर्क किया एवं आगामी बीस मई को ज्यादा से ज्यादा भाजपा के पक्ष मे मतदान करने की अपील की भाजपा नगर अध्यक्ष कोंच सुनील लोहिया

के नेतृत्व में आयोजित जनसंपर्क अभियान में पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, पूर्व नगर अध्यक्ष शंभू दयाल स्वर्णकार, पूर्व नगर अध्यक्ष सुनील कांत पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रांतीय कार्य समिति सदस्य बादाम सिंह कुशवाहा पिछड़ा वर्ग की निवर्तमान क्षेत्रीय मंत्री राजेश्वरी यादव पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पूर्वजिला अध्यक्ष महेंद्र सोनी लला महामंत्री ओ पी कुशवाहा शक्ति केंद्र

संयोजक अवध यादव कोषाध्यक्ष प्रंभंजन गर्ग , श्रीमती मंजू लोहिया, डॉ सरोज लोहिया, मीरा चंदेरिया, एम हेम प्रभासोनी, अर्चना सोनी डॉ सुनीता गुप्ता, नेहा गुप्ता मालती तिवारी , युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष दीपक गर्ग सौरभ पुरवार,विकास पटेल छोटे यादव, छोटू मोंठ वाले, धर्मेंद्र पहाड़िया, राम जी देवगांव वाले आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य के प्रति दिया जन – जागरूकता का सदेश.

क्यों ना लिखूं सच देवेंद्र नगर से घनश्याम प्रसाद शर्मा की खास रिपोर्ट

देवेंद्रनगर उपस्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेंद्र

लगने से शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाता है, मसल्स खिचने लगते हैं , शरीर टूटने लगता है और प्यास बढ़ जाती है, कई बार बुखार ज्यादा बढ़ जाता है ,ब्लड



चढ़ाव को लेकर स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति दिया संदेश डॉ राजेंद्र प्रजापति ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि— बदलते मौसम में आप लू के प्रभाव को गंभीरता से लें , इससे बचाव हेतु आवश्यक सावधानियां रखे और सुरक्षित रहें।। गर्मी के मौसम में लू लगने का खतरा आम होता है , लू

में सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बिगड जाता है ऐसे में बेहोशी की स्थिति भी आ सकती है इसके अलावा ब्रेन या हार्ट स्ट्रोक की स्थिति भी बन सकती है।। डॉ राजेंद्र ने लू के बचाव के लिए बताया कि, घर से बाहर निकलने से पहले भरपेट पानी पिये, सूती ,ढीले एवं आरामदायक

कपड़े पहने , धूप में निकलते समय अपना सिर ढक कर रखें , टोपी ,कपड़ा , छतरी का उपयोग करें । पानी ,छाछ, ओ.आर. एस.का गोल या घर में बने पेय पदार्थ जैसे – लस्सी, नींबू पानी, आम का पाना इत्यादि का सेवन करें , भरपेट ताजा भोजन व तरल पदार्थ का सेवन करके ही घर से बाहर निकले ।। धूप में अधिक न निकले , मिर्च मसाले युक्त , वासी भोजन न करें , कूलर या एयरकंडीशन से ध्रप में एकदम ना निकले।। सिरदर्द ,बुखार ,उल्टी ,अत्यधिक पसीना एवं बेहोशी आना ,कमजोरी महसूस होना ,शरीर में ऐंडन, नब्ज असामान्य होना लू के लक्षण हो सकते है, ध्यान रखें लू के लक्षण हो तो व्यक्ति को छायादार जगह पर लिटायें, व्यक्ति के कपड़े ढीले करें , उसे तरलपदार्थ ,कच्चे आम का पाना आदि पिलाये, तापमान घटाने के लिए ठंडा पानी की पट्टीयां रखें, प्रभावित व्यक्ति को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर चिकित्सकीय परामर्श जरूर ले।। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन जागरूकता के लिए प्रेरित कर रहा है,किसी भी प्रकार की बीमारी से बचने के लिए स्वयं जागरूक बने,साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करें।।

गो तस्कर मुन्ना उर्फ अफसर पर रासुका की कार्यवाही की गई

रिपोर्टर – पवन कुमार

कोंच(जालौन) गो तस्कर मुन्ना उर्फ अफसर पुत्र नूर शफी निवासी मोहल्ला आराजी लेन कोंच के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई है मिली जानकारी मे बताया गया है की मुन्ना उर्फ अफसर पुत्र नूर शफी मोहल्ला आराजी लेन कोंच एक शातिर व जघन्य अपराधी है जो एक संगठित गिरोह का सदस्य है और अपने सह अभियुक्तो के साथ गाँवो के आस पास गायो की तस्करी कर चोरी का कार्य करता है और गायों का वध करके अवेध धनो पार्जन करके प्रकरण में लिप्त है इस कृत्य से समाज मे भय और दहशत का माहौल है बीते दिनों 14 दिसम्बर 23 मे मुखबिर की सूचना पर एसओजी और कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दोरान एक वाहन को रोकने का इशारा किया तो इन गौ तस्करो ने पुलिस पर जान लेवा हमला किया और पुलिस की ज्बाबी कार्य वाही में यह गो तस्कर पकड़े गए थे और कोतवाली पुलिस ने इन लोगो के विरुद्ध मुकदमा धारा 307 34 3 / 5 / 8 गो वध निवारण अधि नियम और 11 पशु क्रूरता अधिनियम और 3/25/27 मे गिरफ्तार किया था इस घटना से समाज मे व्याप्त भय और लोक व्यवस्था को दृषितगत रखते हुये तत्तकालीन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने अभियुक्तों के अपनी रिपोर्ट डीएम के यहाँ भेज दी डीएम ने इस अभियुक्त के विरुद्ध राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 3 उप धारा 2 के अंतर्गत कार्य वाही की है और इस घटना मे शामिल तीन अन्य लोगो के खिलाफ भी इस तरह की कार्यवाही की जा चुकी है।

हनुमना में भव्य दिव्य ऐतिहासिक रूप से मनाई गई परशुराम जयंती

'हनुमना—भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशराम जयंती अक्षय तृतीया महोत्सव हनुमना नगर में पहली बार विप्र विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज पांडे की अगुवाई तथा सरपंच संघ हनुमना के अध्यक्ष आनंद मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन में बड़े ही धूमधाम से भव्य दिव्य ऐतिहासिक रूप से मनाया गया शोभा यात्रा में हिंदू समाज के प्रत्येक वर्ग के जनप्रतिनिधियों ने बढ चल कर लिया हिस्सा व्यापारियों ने पंकज पांडे का पलके बिछाकर किया स्वागत । उल्लेखनीय है कि हनुमना नगर के नगराध्य श्री हनुमान जी मंदिर परिसर से सायं 4रू00 बजे रथ पर सवार भगवान परशुराम की दिव्या झांकी डीजे बैंड बाजे एवं अन्य वाद्य यंत्रों के साथ विप्र विकास परिषद के अध्यक्ष पंकज पांडे की अगुवाई में विशाल शोभायात्रा निकाली गई जो सीधी रोड से जैसे ही आगे बढी सर्वप्रथम पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पूनम गुप्ता एवं राजेश गुप्ता ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया सीधी रोड पर आते ही विधायक प्रदीप पटेल एवं नगर परिषद अध्यक्ष सोनू गुप्ता वरिष्ठ भाजपा नेता ज्योति गुप्ता आदि यात्रा में शामिल हो सभी को

बधाई दी । इस कार्यक्रम में सरयू

माल्यार्पण और साल दे कर खागत

प्रसाद गुप्ता ने पंकज पांडे का



किया गया तथां परिवार यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई । इसके अतिरिक्त समाजसेवी संतोष केसरवानी , सुभाष चंद्र गुप्त, शनि केसरी , रितेश केसरी आदि ने अपने—अपने द्वार पर यात्रा का स्वागत करते हुए प्रसाद एवं जलपान जहां करवाए वही पूरी यात्रा में के दौरान सरपंच संघ अध्यक्ष आनंद मिश्रा की टीम द्वारा लोगों को ठंडा शरबत पिलाया जाता रहा। इनकी रही विशेष

सहभागिता। कार्यक्रम में मऊगंज





शुक्ला वरिष्ठ नेता शिवदत्त मिश्र डा० विष्णु प्रसाद मिश्रा भगवान प्रसाद मिश्र ज्योति गुप्ता नगर परिषद पूर्व उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष मोहनलाल कचेर चंद्र प्रताप पांडे स्वच्छाग्रही प्रेरक संघ अध्यक्ष विरेन्द्र तिवारी भाजपा मंडल महामंत्री संतोष कुमार कोल पार्षद बबोली कोल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक रामाधार द्विवेदी डॉक्टर आर आर शुक्ला महेश

प्रसाद पांडे विजय पांडे आनंद

मिश्रा भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील तिवारी रामाशंकर मिश्र धीरेंद्र मिश्रा ओम प्रकाश तिवारी जय प्रकाश मिश्रा गौरी शंकर पाण्डेय विजय शंकर पांडे अम्बरीश कुमार द्विवेदी शिवम पांडे विवेक त्रिपाठी सुंदरम पांडे आदि की विशेष उल्लेखनीय योगदान एवं सहभागिता रही कार्यक्रम का समापन जनपद पंचायत परिसर हनुमना में किया गया जबकि कार्यक्रम में परशुराम के रूप में बराव गणेश धाम मंदिर के प्रधान पुजारी दिलराज गिरी जी महाराज रथ पर सुभायमान हो रहे थे एवं उनके साथ पंडित उमेश त्रिपाठी आचार्य के रूप में रथ पर सवार थे। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर लोगों ने शुक्रवार बाजार का दिन होने के बावजूद हिस्सा । वही हिंदू समाज के प्रत्येक समुदाय के लोगों ने बढ-चढकर हिस्सा लिया हजारों की संख्या में जैसे ही जन सैलाब हनुमना नगर की सड़कों पर विशाल शोभायात्रा के साथ निकाला लोग एक झलक पाकर अपने आप को धन्य समझ रहे थे ।जगह—जगह पुष्प वर्षा आरती

एवं स्वागत सत्कार करते हुए

प्रसाद वितरित किए ।

मदर्स डे पर स्वामी विवेकानंद वर्सटाइल स्कूल के बच्चों ने किया मातृ पूजन

कोंच(जालौन) तिलक नगर स्थित स्वामी विवेकानंद वर्सटाइल स्कुल के बच्चों ने मदर्स डे को अनुटे तरीके से मनाया विधार्थियो ने विद्यालय के प्रधानाचार्य जीतू पाटकार एवं विद्यालय स्टॉफ की देख रेख में मातृ दिवस के अवसर पर अपनी – अपनी माँ का



उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और मिष्ठान खिलाकर उन्हें मदर्स डे को विस किया अपने लाडलो के इस अंदाज को देख विधार्थियो की माँ भी भावुक हो उन्हें खूब आशीर्वाद देकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनायें प्रदान करती हुई नजर आई इस अवसर पर अभि भावकों ने सयुंक्त रूप से कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए

पजन अर्चन कर

कहा कि स्वामी विवेकानंद वर्सटाइल स्कूल बधाई का पात्र है जो इस तरीके के कार्य क्रमों का आयोजन करता है हमारे बच्चे इस स्कूल में बेहतर शिक्षा के साथ साथ विद्यालय में होने वाली विभिन्न एक्टिवटी से विभिन्न क्षेत्रों में निखार ला रहे है और संस्कार वान बन रहे है अभि भावकों ने कहा कि आधुनिकता में संस्कार कही गुम से होने लगे है लेकिन विधार्थियो को शिक्षित संस्कारित और योग्य बनाने का कार्य स्वामी विवेकानंद वर्सटाइल स्कूल ही कर रहा है इस अवसर पर डायरेक्टर शंभू पटेल सब

डायरेक्टर आराधना पटेल कॉर्डिनेटर पारस मणि अग्रवाल,क्षमा देनिक अखबार क्यूँ न लिखूँ सच गौतम डोली चौरसिया पारुल गौतम पायल गौतम प्रिंसी राठौर संगीता रिंकी कुशवाहा सोहिल आकाश अरस्तु नरेंद्र दिव्यांशु आदि उपस्थित रहे।

को जिला एवं तहसील स्तर पर ब्योरो संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि चाहिए 9027776991 knlslive@gmail.com

स्थानीय निकाय अध्यक्ष एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की बैठक आयोजित

क्युं न लिखुं सच राकेश गुप्ता शामली। स्थानीय निकाय अध्यक्ष एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की एक बैठक मेरठ बागपत रोड स्थित मारवाडी भोज हाल में हुई



जिसमें सहारनपुर मंडल एवम् मुजफ्फरनगर मंडल के 65 नग पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया बैठक में सहारनपुर मंडल के जिला शामली, जिला मुजफ्फरनगर एवं जिला सहारनपुर से आने वाले नगर पालिका अध्यक्षों एवं नगर पंचायत अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से शामली नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद संगल को सहारनपुर कमिश्नरी का मंडल अध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष देशराज सिंह जी की सहमति से चुना तत्पश्चात प्रांतीय अध्यक्ष देशराज सिंह ने मंडल अध्यक्ष प्रमाण पत्र चेयरमेन अरविन्द संगल को विधिवत सौंप कर कार्यभार ग्रहण कराया, बैठक में नगर पालिकाओं संबंधी नौ सूत्रीय मांग पत्र भी जिला कमेटी ने प्रांत कमेटी को सौंप उनके साथ कुछ और मांगों को मिलाकर कुल 15 सूत्रीय मांगपत्र बनाया गया, जिन्हें मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनके सामने रखने प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गयास कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष देशराज सिंह के साथ प्रदेश महासचिव खुर्शीद मंसूरी प्रदेश के उपाध्यक्ष कुंवर मोहम्मद अली प्रदेश मीडिया प्रभारी हा कुमार के साथ 65 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष व

रेलवे फाटक बंद होने पर आगे बढ़ने की कोशिश, नहीं जान की परवाह

क्यूं न लिखूं सच राकेश गुप्ता

शामली। जिला शामली के गुरूद्वारा के निकट फाटक बंद होने पर भी लोगों द्वारा आगे बढ़ाने की कोशिश, नहीं अपनी जान की परवाह। शामली में जब रेल लाइन पर रेल आने पर फाटक बंद कर दिया जाता है और लोगों को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस की तैनाती भी की जाती हैं। इसके बावजूद भी लोग फाटक के नीचे से जबरदस्ती निकलने और आगे बढाने



की कोशिश में अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। पुलिस कॉन्स्टेबल की तैनाती के बाद भी निकलते और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस दुस्साहस से ये पता चलता है कि लोगों के अन्दर पुलिस का खौफ नहीं है क्योंकि पुलिस द्वारा कोई कानूनी वैधानिक धारा लगा कर कार्यवाही की जाती। अगर वैधानिक कार्रवाई की जाये तो कोई अप्रिय घटना नहीं हो सकती और ऐसे करने पर लोगों के अन्दर कानून का डर भी रहेगा। लेकिन परवाह किसी को नहीं है अगर परवाह है तो वाहन के चालान करने की। इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है नागरिक या पुलिस प्रशासन ।

विकास खण्ड गिलौला के गुटुहरु मे किसान पंचायत का हुआ आयोजन

श्रावस्ती गिलौला के गुटुह रु गाँव में किसान पंचायत का आयोजन किया गाया जिसके मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी बिशिशट अतिथि पवन कुमार चौधरी रहे पंचायत की अध्यछता वेरेन्द्र कुमार वर्मा ने किया उपस्थित भारतीय किसान यूनियम (टिकैत)श्रवस्ती का जन समूह सैलाब की तरह मौजूद रहा पंचायत मे संगठन विस्तार पर पूरा जोर देते



हए जिले के पदाधिकारीयों ने तहसील ब्लॉक के पदाधिकारी को संगठन विस्तार पर विषेस जोर देकर संगठन का विस्तार करे पंचायत मे मौजूद प्रमोद तिवारी विमलेन्दर पटेल सीता राम वर्मा हरिदुआर यादव बांकेलाल चौधरी स्वमीदयाल वर्मा धनीराम आजाद संगीता सुधा पाण्डेय गुड़िया गुप्ता नंकुन्ना आर्य धन्यवाशा संगीता देवी सहित जायदा लोगों की संख्या मौजूद रही जिलाध्यक्ष ने महलाओ को अंग वस्त्र भेंट करके महिलाओ का उत्साह बढ़या भोजन के उपरांत पंचायत का हुआ समापन अरविन्द कुमार यादव ब्यूरो श्रावस्ती

ग्राम पंचायत खम्हारडीह के कोटेदार द्वारा राशनकार्ड धारकों के राशन में अवैध कटौती और एडवांस में फिंगर लगवा के लगाया जा रहा है चुना



चितरंगी तहसील का है मामला हितग्राहियों को देना है परंत् जहा पर कोटेदार पंचधारी सिंह ग्राम खम्हारडीह के कोटेदार वैश्य के द्वारा फिंगर घर घर पंचधारी सिंह वैश्य अपने पर जाकर 1-2 महीने का एक मनमर्जी से राशन काट करके साथ लगवा लिया जाता है देते हैं और इस महीने का और हाथ से लिखकर एक चिट राशन उस महीने में, किसी दे दिया जाता है वो भी प्रति का पुरा तो किसी का आधा राशनकार्ड में से 1–2 किलो राशन काट करके चिट दिया जाता है जबिक प्रशासन का में राशन का बैलेंस कई कुंटल आदेश है कि जो पावती / पर्ची राशन फिंगर मशीन से निकलती है उसको देना है और उसमें जितना किलो राशन प्रति कार्ड निर्धारित किया गया

ग्राम पंचायत खम्हारडीह, है पूरा-पूरा राशन प्रति है और खम्हारडीह ग्राम पंचायत अधूरा राशन देते हैं आज भी उनके ऑनलाइन राशन मशीन बचा हुआ हैं परंतु उनके राशन दुकान में राशन खत्म हो गया है जब लोगों के द्वारा पूंछा जाता है तो उनके द्वारा थ्प्त करने की धमकियां दी जाती

के लोगो में चर्चा का विषय है कि कोटेदार द्वारा पिछले साल नवम्बर महीने का पूरा राशन बेच दिया गया था उसी महीने का राशन को एडजस्ट करने के कारण बहुत लोगो का एक महीने का राशन नहीं दिया है और बहुत सारे लोगो को आधा अधूरा देते हैं फिर भी आज वर्तमान में भी इनके फिंगर मशीन में राशन का बैलेंस दिखाई देता है और आज भी कई लोग अपना राशन नहीं पाए हैं और जब भी राशन मांगा जाता है तो कोटेदार द्वारा बोला जाता है कि अगले महीने देंगे और जब अगला महीना आता है तो मांगने पर कोटेदार द्वारा बोला जाता है कि आपका कोई राशन बाकी नहीं है और अनावश्यक रूप से विवाद किया जाता है इस समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायत खम्हारडीह के समस्त ग्रामीणों का जिला कलेक्टर और चितरंगी एसडीएम महोदय से निवेदन है कि उचित कार्यवाही करते हुए कोटेदार की विधिवत जांच और यहां से हटाने की मांग की गई हैं

गर्मी में झुलसा केस्को का सिस्टम, फॉल्ट की झड़ी लगी...जनता रही परेशान

मॉनीटरिंग की जा रही है। कुछ जगहों पर अभी और कार्य कराने की जरूरत है। मरम्मत को लेकर नए सिरे से विचार विमर्श चल रहा है। कानपुर में केस्को के बिजली सिस्टम में शनिवार को हुए फॉल्टों ने उपभोक्ताओं की मुसीबतें बढा दीं। शहर के आधा दर्जन डिवीजन में उपकरण फुंक गए, जबकि कई जगह फॉल्ट हुए, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक समस्या पेयजल को लेकर रही। लोगों ने केस्को के हेल्पलाइन नंबर और एक्स पर शिकायतें दर्ज कराईं। सर्वोदयनगर खंड के नवीननगर

कानपुर। केस्कों के निदेशक ने कबूतर चिपकने से 11 केवी एम स्टेशन के अशोकनगर फीडर की

ब्लॉक स्वराज इंडिया फीडर की एचटी लाइन फुंक गई। यहां दोपहर आपूर्ति दोपहर 3:30 बजे से शाम छह 2.20 से 3.40 बजे तक बिजली गुल



बजे तक ठप रही। यहां 11 केवी ओवरहेड केबल बॉक्स क्षतिग्रस्त हो गया था। फूलबाग उपकेंद्र के अंतर्गत 33 केवी भूमिगत केबिल में फॉल्ट हो गया। यहां दोपहर 1.20 से शाम 4.25 बजे तक लाइट नहीं रही। वहीं, नवाबगंज खंड के जल संस्थान सब

रही। हैरिसगंज खंड के रिंग रोड उपकेंद्र में 400 के वीए का नया वितरण परिवर्तक लगाने के लिए शाम 5.30 से 6.50 बजे तक बिजली नहीं रही। इसी प्रकार कई इलाकों में बिजली कटौती भी रही, जिससे जनता परेशान हुई। मरम्मत दिक्कतें केस्को की ओर से जनवरी से लेकर अप्रैल तक मरम्मत, टांसफार्मर, केबल, अंउरग्राउंड लाइन के उच्चीकरण के कार्य किए गए। कई जगह उपकरण बदले गए लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। गर्मी बढ़ते ही लोड बढ़ने से फॉल्ट शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन ने चार दिन पूर्व लखनऊ में हुई बैठक में केस्को के अधिकारियों को बेहतर बिजली सप्लाई के लिए निर्देश दिए थे, जबिक इसके नतीजे उल्टे ही आ रहे हैं। फॉल्ट की लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। कुछ जगहों पर अभी और कार्य कराने की जरूरत है। मरम्मत को लेकर नए सिरे से विचार विमर्श

हमीरपुर रोड पर आज और कल डायवर्जन, पोलिंग पार्टियों की रवानगी के चलते बदली है व्यवस्था

कानपुर।पोलिंग पार्टियों की रवानगी और मतदान के चलते हमीरपर पर यातायात व्यवस्था बदली गई है। यहां हल्के वाहन आज सुबह छह



से रात आठ बजे तक और सोमवार दोपहर तीन से रात 12 बजे तक बदले मार्ग से चलेंगे। वहीं मध्यम व भारी वाहन आज रात आठ बजे तक और कल दोपहर 12 से रात तीन बजे तक

हमीरपुर रोड से नहीं जाएंगे। कानपुर में सोमवार को होने वाले चनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रविवार को रेस कोर्स मैदान नौबस्ता और संत

निरंकारी मैदान अर्रा से रवाना होंगी। इसके चलते हमीरपुर रोड पर डायवर्जन रहेगा। डीसीपी ट्रैफिक आरती सिंह ने बताया कि ल्के वाहनों के लिए

डायवर्जन रहेगा। इसी तरह भारी वाहनों के लिए रविवार रात आठ बजे तक और सोमवार को दोपहर 12 बजे से रात तीन बजे तक डायवर्जन लाग रहेगा। हल्के वाहनों के लिए नौबस्ता से रमईपुर की ओर जाने वाले हल्के वाहन नौबस्ता बंबा से बाएं मुड़कर वैष्णवी हॉस्पिटल आवास विकास होते हुए समाधि पुलिया पहुंचेंगे। इसके बाद हमीरपुर रोड पर आ सकेंगे। रमईपुर से नौबस्ता की ओर आने वाले हल्के वाहन ओरियारा से आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वाहन वाहन ओरियारा से बाएं मुड़कर थाना सेन पश्चिम पारा, फत्तेपुर गांव, पांडु नदी पुराना पुल होते हुए आ सकेंगे। भारी वाहनों के लिए लखनऊ से हमीरपुर को जाने वाले सभी प्रकार के भारी व मध्यम मालवाहक वाहन रामादेवी से चौडगरा, घाटमपुर या फतेहपुर होते हुए जाएंगे। इसके अलावा नौबस्ता से सचेंडी, मूसानगर, घाटमपुर होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे। हमीरपुर से कानपुर की ओर आने वाले भारी व मध्यम मालवाहक वाहन घाटमपुर से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये वाहन घाटमपुर, चौडगरा होते हुए जा सकेंगे। इसके अलावा मूसानगर, सचेंडी और नौबस्ता होते हुए जा सकेंगे।

ड्यूटी जा रहे सिपाही की सड़क हादसे में मौत, दो मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

ड्यूटी जा रहे एक कांस्टेबल की

सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा बड़ागांव थाना क्षेत्र की कोइरीपुर गांव के पास हुआ। हादसे में एक साथी को मामूली चोटें आई हैं। उधर, कांस्टेबल की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वाराणसी जिले में रविवार की सुबह सेवापुरी/ कपसेठी थाने पर तैनात कांस्टेबल की बाबतपुर एयरपोर्ट पर सड़क



साथी कांस्टेबल के साथ ड्यूटी

वाराणसी। वाराणसी जिले में हादसे में मौत हो गई। वे अपने एक करने जा रहे थे। इसी दौरान बड़ागांव थाना क्षेत्र की कोइरीपुर गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आए, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे में साथी कांस्टेबल मनन को हल्की चोट आई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक, कांस्टेबल देवी लाल यादव (34) पुत्र राजबहादुर मूल रूप से रसरा बड़ौत

निवासी थे। वे 2016 बैच के कांस्टेबल थे और 2022 से कपसेठी थाने पर तैनात थे। घटना की सुचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी लक्ष्मी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक एक ढाई साल की पुत्री और तीन माह के बेटे का पिता बताया जा रहा है। उधर, घटना के बाद कपसेठी थाने पर सिपाहियों में

अब भी डाकघर में जमा कर सकते हैं 2000 के नोट

वाराणसी। दो हजार रुपये के नोट अब भी डाकघर में जमा कर सकते हैं। वाराणसी के विशेश्वरगंज और कैंट के डाकघर में यह सुविधा है। हालांकि 10 नोट ही जमा हो सकेंगे। इसके लिए कुछ दस्तावेज भी लगेंगे। दो हजार के नोट पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। विशेश्वरगंज और कैंट के डाकघर में अभी यह सुविधा उपलब्ध है। विशेश्वरगंज की शाखा में करीब छह लोग हर दिन नोट जमा कर रहे हैं। एक बार में दस नोट ही जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में एक प्रोफार्मा भरकर जमा करना होगा। उसमें नाम, पैन नंबर, आधार कार्ड आदि डिटेल डालनी होगी। इसके बाद पोस्ट ऑफिस उसे आरबीआई में वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन के बाद पैसा अकाउंट में आ जाएगा। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक उनके पास सारी नोट वापस नहीं पहुंची है। इससे आरबीआई ने 2023 तक का समय दिया था, फिर 31 मार्च 2024 तक समय बढ़ा दिया। इसके बाद आरबीआई ने इसके लिए कुछ पोस्ट ऑफिस को नोट बदलने की जिम्मेदारी दी है। डिप्टी पोस्ट मास्टर नरेंद्र अस्थाना ने बताया कि विशेश्वरगंज और कैंट के डाकघर में नोट जमा हो रहे हैं। एक बार में दस नोट ही बदले जाएंगे। अभी डाक विभाग के पास कोई डेडलाइन नहीं है, कि कब तक नोट जमा होगी।

पुरानी रंजिश के चलते घर मे घुस कर कर दी मारपीट

रिपोर्टर – पवन कुमार

कोंच(जालीन)कोतवाली के समीपस्थ कैलिया रोड दोहर पेट्रोल पम्प के पास निवासी जीतेन्द्र कुशवाहा पुत्र रामदास ने दिन रबिवार को कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि घटना दिनांक 12 मई 2024 समय करीब सुबह 11 बजे की है जब



काम कर रहा था तभी पुरानी रंजिश को लेकर हर्ष कुमार पुत्र लालाराम अपने पुत्र शिवम व अशोक पुत्र हरीसिंह बृजेश पुत्र दिनेश मनोज पुत्र कलू घर के अंदर घुस आए और गाली गलौच करने मेरे मना करने पर हर्ष कुमार अशोक व शिवम मुझे लाठी डंडों से मारने पीटने लगे तभी वृजेश ने लोहे का सरिया सिर में मारकर घायल कर दिया तथा मनोज ने राखी पत्नी धर्मेंद्र के वाल पकडकर मारपीट करते हुए जमीन पर पटक दिया और बेपर्दा कर दिया हो हल्ला सुनकर आस पास के लोग व

राहगीर आ गए और बीच बचाव कराया तो उक्त लोग जान माल की धमकी देते हुए भाग गए जीतेन्द्र ने पुलिस से उक्त लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की मांग की है जिस पर पुलिस मामले का संज्ञान लेते हुए जांच में जुट गई है आए दिन सुरई चौकी क्षेत्र में खूनी संघर्ष जैसी घटनाएं घटती रहती हैं ऐसा ही एक मामला मोहल्ला गोखले नगर का 19 अप्रैल को भी हुआ था जिसमें सुरई चौकी इंचार्ज 151 की कार्रवाई कर कर मामला को खत्म कर देते हैं हम बताते चलें आपको सुरई चौकी इंचार्ज गुडविल पर ज्यादा ध्यान रखते हैं क्राइम पर नहीं आज 3 घटे तक बैठा रहा फरियादी सर पड़े हुए इसके गंभीर चोटे थी कोच में डॉक्टर ने उसे रेफर भी किया है लेकिन संदीप कुमार ने अधिकारियों को गुमराह कर दिया जिससे पीड़ित को नहीं मिलने आए पीडित ने ईमानदार डॉक्टर ई राजा एसपी साहब से फोन पर बात भी की है अब देखना यह है कि पीडित का मुकदमा लिखता है या नहीं या सुरई चौकी इंचार्ज अपने अधिकारियों को गुमराह ही करते रहेंगे अगर कहीं ऐसा होता रहा तो सुरई चौकी क्षेत्र में नहीं मिलेगा किसी फरियादी को नहीं न्याय।

सागर वाल्मीकि ग्राम शहपथ सुबह साथ बजे गांव के दबंग के व्यक्ति ने बुलेट गाड़ी मारपीट कर छीन ली थाना तीतर वाडा केराना थाना कोतवाली में दी तहरीर

केराना 11 मेंई 2024 राजेंद्र वाल्मीकि पुत्र विशपाल वाल्मीकि ग्राम



चौकी ग्राम तीतर वाडा शामली जनपद शामली का स्थाई निवासी है कल दिनांक 11 मई 2024 को मेरा वाल्मीकि गांव से प्रातः सुबह ७७०० बजे गंगेरू अपनी मां को छोड़कर के वापस गांव सहपत आ रहा था प्राथी राजेंद्र वाल्मीकि को सागर की शादी में बुलेट गाड़ी दी गई

थी जिसपर वह वापस आते हुए जिसमें रास्ते में गांव सहपत के दबंग वैष्णो दयाल पुत्र जितेंद्र सिंह गुर्जर ने मेरे पुत्र सागर के साथ मारपीट कर बुलेट गाड़ी छीन ली प्रार्थी राजेंद्र वाल्मीकि ने गांव के जिम्मेदार कुछ लोगों को लेकर वैष्णो दयाल के निवास पर जाकर अपनी बुलेट गाड़ी वापस देने के लिए कहा जिसमें उन्होंने प्रार्थी राजेंद्र वाल्मीकि को गाड़ी देने से मना

कर दिया और गंदी-गंदी गालियां वह जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया जिसमें प्रार्थी ने उक्त संबंध में थाना पुलिस चौकी ग्राम तीतर वाडा एवं थाना कोतवाली केराना मैं तहरीर देकर मुकदमा लिखवाने एवं अपने व अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा प्रदान करने की और बुलेट गांड़ी वापस दिलाने की प्रार्थना की जिसमें हलके के दरोगा अमरदीप ने उक्त संबंध में जांच कर कार्यवाही करने का आसान दिया।

देश के विकास व देशवासियों के मान-सम्मान के लिए भाजपा जरूरी- शर्मा

लोकसभा सीटों में भी कमल खिलाकर पूरे देश का मान बढ़ाना है।भाजपा को जिताकर मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है। देश के समग्र विकास व देशवासियों के मान-सम्मान और सुरक्षा के लिए भाजपा जरूरी है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बलिया दौरे में लोकसभा 71 सलेमपुर और लोकसभा 72 बलिया सदर में भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा और नीरज शेखर के पक्ष में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में कार्यकताओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि बलिया की दोनों लोकसभा सीटों पर कमल खिलाकर पूरे देश में जिले का नाम रोशन करना है। बूथ अध्यक्ष और कार्यकताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि पन्ने पर लिखें सभी नामों के आगे मतदाताओं का मोबाइल नंबर अंकित कर उनसे लगातार संपर्क में रहें। वे मतदान के दिन अपनी बुथ व विधानसभा क्षेत्र से कहीं बाहर न जाएँ और शत-प्रतिशत मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। उनके दल की मानसिकता का पता

जनता को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता को सुविधायें देकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का सफल प्रयास किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी कार्य समिति ने लोकसभा क्षेत्रों में ऊजार्वान और जनहित को समर्पित प्रत्याशी देकर अपना काम पूर्ण कर दिया है। अब इस लड़ाई की पुरी जिम्मेदारी आप सभी पर है। आप सभी अध्यक्ष अपने बुथ को शत प्रतिशत मतदान कराकार मजबूत करें। आने वाले 20 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि बलिया शूरवीरों की धरती है। यहां पर जोश की कोई कमी नहीं है। हमें अपने बूथ को मजबूत करने, शत प्रतिशत मतदान कराने के साथ ही विपक्ष द्वारा फैलाये जा रहे भ्रम से भी मतदाताओं को अवगत कराना है और विपक्ष की दूषित मानसिकता को जनता के सामने लाना है। सपा के सलाहकर प्रोफेसर रामगोपाल ने राम मंदिर के वस्तु को लेकर बयान दिया था। रामगोपाल के इस बयान से उनकी और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने देश की चलता है। मैंने उन्हें जवाब देते हुए कहा ठीक था जब मुगल आक्रताओं ने अयोध्या के श्री राम मंदिर को रौंदा था। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम मंदिर के बारे में जो कुछ भी कहा इससे साबित होता है कि वह न राम के हैं, न गोपाल के हैं। उन्होंने न राम मंदिर के लिए कुछ काम किया, न ही गोपाल की गायों के लिए कुछ काम किया। वे सपा अध्यक्ष अखिलेश जी के सलाहकर के साथ उनके परिवार के चाचा भी हैं। उन्होंने कहा कि इतनी भव्यता, दिव्यता, पौराणिकता के साथ श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को प्रधानमंत्री के नेतृत्व, उपस्थिति और साधू-संतों के आशीर्वाद से संपन्न किया गया, जिसका देश ही नहीं पूरा विश्व साक्षी रहा। पूरी दुनिया ने इस कार्य की सराहना की। सैफई परिवार बिल्कुल सुल्तानी और मुगलई सोच व समझ वाले लोग हैं, इनकी बातों पर ध्यान देना उचित नहीं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे देश की जनता का शोषण किया था, उसी प्रकार विपक्षी दलों की सरकारों ने हमारी गरीब जनता का

कि नीरज शेखर और रवींद्र कुशवाहा दोनों ही आपके जिले के प्रतिष्ठित और बहुत ही विनम्र व सहयोगी जनप्रतिनिधि हैं। आपको उनकी झोली को भरकर लोकसभा पहुँचाना है और बलिया के विकास को शिखर पर ले जाना है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला और यह आगे 05 वर्ष तक मिलता रहेगा। 04 करोड़ लोगों को आवास मिला और आने वाले साय में 03 करोड़ और आवास दिए जायेंगे। 70 वर्ष कि आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी जा रही है। शौचालय मिला, गैस सिलेंडर जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएँ मिली हैं। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, संजय यादव जिलाध्यक्ष, उपेंद्र तिवारी पूर्व मंत्री, विधायक अनुपम तिवारी, राजीव मोहन चौधरी, चंद्रगुप्त, अंजनी राय, राजन सिंह, अरुण कुमार समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

राजधानी लखनऊ में मना अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस

OWN STATE

लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों के चिकित्सा संस्थानों में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान नर्सों का सम्मान किया गया और उनके योगदान को सराहा गया। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में रविवार सुबह वर्किंग डे की तरह डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी और पैरामेडिकल स्टॉफ पहुंचे। मेडिकल संस्थानों में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और उनके जीवन पर चर्चा की गई। यूपी के सबसे बड़े चिकित्सा विश्वविद्यालय केजीएमयू के लारी कार्डियोलॉजी में डॉक्टरों और नर्सेज एसोसिएशन के संरक्षक प्रदीप गंगवार की मौजुदगी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बेहतरीन काम करने वाली निसंग स्टॉफ का सम्मान किया गया। सम्मानित होने वाली नर्सों में नूर आनंद, प्रीथा कुमारी, कामिनी यादव, सोनिया वर्गीश, सरिता, अमृता श्रीवास्तव शामिल रहीं। केजीएमय में कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में डॉक्टर मौजूद रहे। डॉक्टर्स ने माना कि बिना नर्सों के मरीजों का इलाज मुमिकन नहीं है। मेडिकल केयर के लिए निर्संग का रोल बेहद अहम है। आज भी देश-दुनिया में एक्सपर्ट मेडिकल नर्सिंग स्टॉफ की भारी कमी है। ऐसे में इस क्षेत्र में करियर के लिहाज से कई मौके हैं, लेकिन मन में सेवा की भावना होना जरूरी है। प्रदीप गंगवार ने बताया कि इस बार के नर्स डे 2024 की थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति है। 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह दिन नर्सेस के सम्मान और नर्सिंग प्रोफेशन को बढ़ावा देने के लिए खास है। यह दिन मॉडर्न निर्संग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में उनकी जयंती पर सेलिब्रेट किया जाता है। नर्स डे पर लोकबंधु राजनारायण अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निदेशक सुरेश कौशल की मौजूदगी में अस्पताल की सभी नर्स के लिए केक काटा गया। इस मौके पर नर्सेज ने अपनी बात रखी। अस्पताल प्रशासन ने नर्सिंग स्टॉफ की भूमिका का जमकर बखान किया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजीव दीक्षित, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय शंकर त्रिपाठी मौजुद रहे।

कांग्रेस का आधा दर्जन सीटों पर खास ध्यान, झोंकी ताकत

प्रियंका के हवाले है अमेठी व रायबरेली

लखनऊ। कांग्रेस का पांचवे. छठे व सातवें चरण के चुनाव में उसके हिस्से आई आधा दर्जन सीटों पर खास फोकस है। कांग्रेसियों की नजर रायबरेली व अमेठी के अलावा बाराबंकी, इलाहाबाद, बांसगांव व महाराजगंज की सीटों पर भी है।सपा का साथ मिलने से से इन सीटों पर कांग्रेस की उम्मीद बढ़ी है। कांग्रेस पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति के तहत कदम बढ़ा रही है। कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोटबैंक पर है जिसे पार्टी अपनी बढ़त का आधार मान रही है। वर्तमान में कांग्रेस के पास रायबरेली की एकमात्र सीट है।रायबरेली व अमेठी में चुनाव प्रचार की बागडोर राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने संभाली है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

अखिलेश यादव ने आज बाराबंकी में संयुक्त सभा की। यहां कांग्रेस के पूर्व सांसद पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया चुनाव मैदान में हैं। इलाहाबाद सीट पर सपा के पूर्व मंत्री रेवती रमण सिंह के बेटे उज्ज्वल रमण सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।बांसगांव में कांग्रेस ने हाथी का साथ छोड़कर आए सदल प्रसाद पर दांव लगाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में सदल प्रसाद बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। महाराजगंज से कांग्रेस विधायक वीरेन्द्र चौधरी मैदान में हैं।कांग्रेसी मानते हैं कि राहुल गांधी ने संविधान बचाने की आवाज उठाई जिसका चुनाव में असर दिख रहा है। दलित और पिछड़े कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। इन सीटों पर कांग्रेस पहले जीत

चुकी है। सपा की ताकत भी कांग्रेस के साथ है, जिससे परिणाम बदलने की उम्मीद है। कानपुर व झांसी में कांग्रेस मजबूत हुई हैं। इन सीटों पर इंडिया बनाम एनडीए की जंग तगड़ी है।कुछ सीटों पर राहुल गांधी व सपा प्रमुख अखिलेश यादव की संयुक्त सभाएं होंगी। गारंटी कार्ड तथा इस बार बूथ स्तर पर एजेंट बनाए जाने से कांग्रेस का संगठन मजबूत हुआ है, जिसका असर देखने को मिलेगा। कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा।कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 14 मई को महाराजगंज व बांसगांव में जनसभा करेंगे राहुल-अखिलेश की संयुक्त सभाएं होंगी। इलाहाबाद में संयुक्त सभा के अलावा प्रियंका वाड्रा का रोड शो की

टैबलेट से हाजिरी भेजने में अब नही चलेगा शिक्षकों का कोई बहाना

लखनऊ। अब टैबलेट से छात्रों की उपस्थिति, दीक्षा पोर्टल, स्विफ्ट चेट बोर्ड से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण देना और निपुण लक्ष्य का आकलन इन सब कार्यों में शिक्षकों की बहानेबाजी नहीं चलेगी। शिक्षकों को स्थानीय स्तर पर डाटा के साथ सिम खरीदने के शिक्षा विभाग में निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद शिक्षकों को अब टैबलेट से उपस्थिति समेत समस्त विवरण भेजना अनिवार्य कर दिया गया है।सरकारी परिषदीय स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं में पढ़ने वाले बच्चों की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था और बच्चों शिक्षकों की उपस्थिति के साथ अन्य विवरण का डाटा भेजने के लिए जनपद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को टेबलेट बांटे गए थे।लेकिन टेबलेट मिलने के बाद शिक्षकों की मांग थी कि विभाग द्वारा सिम और डाटा उपलब्ध कराया जाए इसके बाद ही वह समस्त विवरण और बच्चों की उपस्थिति इससे भेजेंगे। शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए टेबलेट को चलाने के लिए सिम और डाटा के लिए 2400 रुपये प्रति टेबलेट की शिक्षा विभाग ने ग्रांट भी जारी कर दी थी। बीएसए जालौन चंद्रप्रकाश के मुताबिकनजिले के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को स्थानीय स्तर पर डाटा के साथ सिम खरीदने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। के लिए सिम कार्ड स्थानीय स्तर पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता के मुताबिक खरीदी जाएगी।

अब शिक्षकों की ऑनलाइन बच्चों और स्वयं की उपस्थिति के साथ पोर्टल आदि का विवरण अपडेट करने में कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी इस संबंध में जिला संयोजक बालिका शिक्षा श्यामजी गुप्ता ने बताया कि शिक्षकों को टेबलेट चलाने के लिए सिम कार्ड और इंटरनेट की सुविधा जिसमें दो माह के व्यय के लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट से तत्काल बजट दिया गया है। जिसमें प्रति टेबलेट 2400 रुपये और दो टैबलेट के लिए अधिकतम 4800 रुपये व्यय किए जाने हैं। इसकी धनराशि का समायोजन विद्यालय को प्राप्त होने वाली कंपोजिट स्कूल ग्रांट से किया जाएगा।1982 शिक्षकों को टैबलेट देने के बाद बच्चों की उपस्थिति पोर्टल अपडेट भेजना था। लेकिन शिक्षक विभाग से सिम और डाटा की मांग कर रहे थे। अब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को टैबलेट चलाने के लिए स्थानीय स्तर पर डाटा के साथ सिम खरीदने के निर्देश दिए गए। टैबलेट

बहुजन समाज के साथ आने से हमारे संघर्ष में नया उत्साह आ गया है:अखिलेश

लखनऊ। प्रदेश में चौथे चरण की मतदान से पहले समाजवादी पार्टी ने एक और नई लिस्ट जारी की है, जिसमें मिजार्पुर सेरमेश बिंद और रॉबर्सगंज से छोटेलाल खरवार को टिकट दी है। वहीं, कुछ दिन पहले ही मिजार्पुर में समाजवादी पार्टी के विधायक प्रत्याशी राजेंद्र एस. बिंद ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है। जनता से पूछा है कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? उन्होंने वीडियो जारी करते हुए बताया कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में उनकी मुलाकात रमेश बिंद से हुई है।इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि रमेश बिंद ने सपा के राष्ट्रीय अध्ययन अखिलेश यादव से कहा कि राजेन्द्र एस. बिंद का टिकट काटकर उनको टिकट दिया जाय, क्योंकि वो सांसद व विधायक रहे हैं। प्रतिनिधित्व करने का अधिकार उनका है। प्रत्याशी ने कहा कि वह विधायक, सांसद नहीं बने तो राजनीति में नहीं आना चाहिए। जनता का सेवा करने का अधिकार नहीं है। ये किस तरह की राजनीति है। जनता से पूछा कि ये चुनाव उनको लड़ना चाहिए या रमेश चंद बिंद को लड़ना चाहिए?आपको बता दें कि सामाजवादी पार्टी ने आर एस बिंद का टिकट एक बार फिर काट दिया है। 2019 में आर एस बिंद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, मगर अंतिम वक्त में उनका टिकट काट कर रामचरित्र निषाद को दे दिया गया। इस बार कुछ ही ऐसा होता नजर आया है। रमेश बिंद मिजार्पुर के मझवां विधानसभा से बसपा से लगातार तीन बार विधायक रहे हैं। बसपा छोड़ कर 2019 में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने टिकट दिया और वह भदौही से सांसद बने।

समाजवादी पार्टी ने मिजापुर से बदला प्रत्याशी,

रॉबर्ट्सगंज से छोटेलाल खरवार को मिला टिकट

चाचा ने भतीजे को मार डाला,पत्नी को छोड़ने गया था ससुराल

लखनऊ। लखनऊ में चाचा ने भतीजे की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक के शरीर में 30 से ज्यादा जख्म के निशान मिले हैं। वह पत्नी को पहुंचाने ससुराल गया था। लौटते समय रास्ते में उसे चाचा ने घेर लिया। उस पर चाकू से हमला कर दिया। जब तक वह मरा नहीं, तब तक चाकू मारता रहा। वारदात के बाद वह मौके से भाग गया। मृतक मोहम्मद जैद के भाई ने पुलिस को तहरीर में बताया कि चाचा के साथ पुस्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। भाई की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। घटना बाजारखाला थाना इलाके की है। फैज ने कहा जैद को मारने की साजिश चाचा कई बार कर चुका है। 15 सितंबर 2023 को जान से मारने की कोशिश की थी। इसमें जैद को काफी चोट आई थी। वह एक महीने तक बलरामपुर अस्पताल फिर केजीएमयू में भर्ती रहा। पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो आरोपी जेल जाने से बच गए। इसलिए उनके हौसले बुलंद हो गए। आखिरकार उन्होंने भाई को मार ही डाला। दरअसल, जैद तीन भाई है। मृतक कि महांव रोड पर 132 बीघा जमीन है। पिता की मौत के बाद चाचा उस जमीन पर कब्जा कर लिया। जैद और उसके भाई जमीन मांगते तो जान से मारने की धमकी दी जाती। चाचा यही चाहता था कि ये लोग इस जमीन को छोड़ दें। इसलिए कई बार हमला करा चुका है। घटना के बाद परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। डीसीपी दुर्गेश कुमार का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों से भी बयान लिए जा रहे हैं।

का कल यानी कि 13 मई क चुनाव है। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चौथे चरण के मतदान से एक दिन पूर्व रविवार को पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की एकता पर जोर दिया और कहा कि बहुजन समाज के लोगों

के साथ आ जाने से सामाजिक न्याय के संघर्ष में नया उत्साह आ गया है। सपा प्रमुख ने रविवार को देने के लिए लगातार आगे आ रहे



अपील के बाद जिस तरह से बहुजन समाज के लोग समर्थन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने हैं उससे भाजपा के खिलाफ हमारी कई गुनी बढ़ गयी है। हम फिर से लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण एक पोस्ट में कहा हमारी सीधी संविधान और आरक्षण बचाने की दोहरा रहे हैं कि संविधान ही संजीवनी

> गडाई को नई ताकत मिली है। ११ यादव ने कहा , पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकताओं व सपा की बाबासाहेब वाहिनी से लोग संपर्क करके अपना सहयोग दे रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों के साथ आ जाने से

सामाजिक न्याय के हमारे संघर्ष में नया उत्साह आ गया है। उन्होंने कहा

है। जब तक संविधान सुरक्षित रहेगा तब तक हम सबका मान-सम्मान-स्वाभिमान और अधिकार सुरक्षित रहेगा। सपा प्रमुख ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा लोकसभा

मतदाता जागरूकता अभियान

के तहत वोट देने की अपील

लखनऊ। लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए सामाजिक

प्रेरित किया।

चुनाव के अगले चारों चरणों में सब एकजुट होकर खद्द भी और दुसरों को भी इंडिया गठबंधन में शामिल सपा, कांग्रेस व अन्य दलों के प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोट डालने का संकल्प लें। पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की एकता ही सुनहरा भविष्य बनाएगी।

एवं सांस्कृतिक संस्था एलायंस सोशल एंड कल्चरल सोसायटी के तत्वावधान में आज प्रातरूकाल घंटाघर पुराने लखनऊ में आमजन को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। दिलावर हुसैन के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आज प्रातरूकाल घंटाघर पर बनो देश के भाग्य विधाता अब जागो प्यारे मतदाता, छुट्टी नहीं मनाना है वोट डालने जाना हैं जैसे अन्य स्लोगन की तिख्तयां हाथों में लिए लोगों ने आम जनता से मतदान करने की अपील की। इस मौके पर दिलावर हुसैन ने लोगों को पोस्टर बांट कर मतदान के महत्व बताया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक राष्ट्र में मतदाताओं की महती भूमिका होती है। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारियो आर.पी.सिंह, मोहम्मद अशफाक, असलम जावेद सिद्दीकी, रईस सिद्दीकी, मोहम्मद नसीम, प्रिंस इकबाल, कैसर काजमी ने जागरूकता अभियान के दौरान लोकतंत्र के महापर्व में सभी को शामिल होकर वोट डालने के लिए

संक्षिप्त खबरें

गर्मी की छुट्टी में भी मिलेगी छात्र-छात्राओं को आयरन की गोली

लखनऊ। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान साप्ताहिक आयरन की गोली का सेवन जारी रखने हेतु अवकाश से पहले नोडल शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को आठ आयरन की गोली का वितरण कराये। गोलियं का वितरण एक्सपायरी तिथि पुष्टि के बाद करें।अवकाश से पहले छात्र-छात्राओं को या पीटीएम के दिन अभिभावकों को आयरन की गोलियों का वितरण करते हुए गोलियों के निरंतर सेवन से लाभ के बारें में जागरूक करें।आयरन की गोलियों का उपभोग एवं कार्यक्रम की निगरानी विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा सुनिश्चित की जाए।उपलब्ध कराई गई गोलियों का विवरण विफ्स रजिस्टर एवं विफ्स कार्ड मे अंकित करें और मासिक रिपोर्ट ब्लाक स्तरीय सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध कराएं।गर्मियों में, पर्याप्त माला में पानी, घर पर बना नींबू पानी, छाछ आदि पिऐं। खाने में मौसमी फल और सब्जियाँ खट्टे फल शामिल करने की सलाह दें।उन्हें काबोनेटेड पेय पदार्थ, उच्च चीनी वाले पेय, चाय, काफी, तले हुए खाय पदार्थ से परहेज या कम से कम शामिल करने की सलाह दें।

बीजेपी नेता रवि राय के घर पहुंचे नगर विकास मंत्री

लखनऊ। बलिया के सिकन्दरपुर नगर के नगरा मोड़ के समीप स्थित शिक्षक संघ प्रकोष्ठ के सह संयोजक रवि राय के आवास पर पहुंचे नगर विकास व ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का रवि राय जिला कार्यसमिति के सदस्य मंजय राय, समाजसेवी गनेश प्रसाद सोनी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकताओं पदाधिकारियों व समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अन्य विपक्षी दलों की सरकारें रर्ह है, जिन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किय। आज जब केंद्र में पीएम मोदी और प्रदेश में सीएम योगी की डबल इंजन की सरकार है, तो आपको मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, लोगों को राशन, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चिकित्सा के क्षेत्र में भी सभी सुविधाएं दी जा रही है। आगे कह कि अगर कोई भी समस्या उतपन होती है, तो आप रवि राय से मिलकर अपनी समस्या बता सकते है। इनके द्वारा बताई गई समस्या का हल तत्काल कराने का प्रयास किया जाएगा।वार्ड नं.1 के सभासद प्रतिनिधि रामजी वर्मा ने जर्जर तारों को बदलने, टूटी पटिया की मरम्मत नाली के सफाई व स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग सम्बंधित ज्ञापन सौंपा।

बीजेपी नेता रवि राय के घर पहुंचे नगर विकास मंत्री

लखनऊ। बलिया के सिकन्दरपुर नगर के नगरा मोड़ के समीप स्थित शिक्षक संघ प्रकोष्ठ के सह संयोजक रवि राय के आवास पर पहुंचे नगर विकास व ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का रवि राय जिला कार्यसमिति के सदस्य मंजय राय, समाजसेवी गनेश प्रसाद सोनी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकताओं पदाधिकारियों व समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अन्य विपक्षी दलों की सरकारें रही है, जिन्होंने गरीबे के लिए कुछ नहीं किय। आज जब केंद्र में पीएम मोदी और प्रदेश में सीएम योगी की डबल इंजन की सरकार है, तो आपको मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, लोगों को राशन उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चिकित्सा के क्षेत्र में भी सर्भ सुविधाएं दी जा रही है। आगे कहा कि अगर कोई भी समस्या उतपन होर्त है, तो आप रवि राय से मिलकर अपनी समस्या बता सकते है। इनके द्वार बताई गई समस्या का हल तत्काल कराने का प्रयास किया जाएगा।वार्ड नं.1 के सभासद प्रतिनिधि रामजी वर्मा ने जर्जर तारों को बदलने, टटी पटिया की मरम्मत नाली के सफाई व स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग सम्बंधित

बीजेपी सांसद ने की डिम्पल पर अमर्यादित टिप्पणी, सपाइयों में रोष

लखनऊ। भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद प्रो.रामशंकर कठेरिया द्वारा मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के खिलाफ रोजगार को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर सियासी उबाल आ गया। समाजवादी पार्टी ने आक्रोश जताते हुए यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग की है।सांसद प्रो. रामशंकर कठेरिया ने शुक्रवार शाम को भरथना में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल कि श्उन्होंने जनपद में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की है।१ इस पर कहा था कि वह (डिंपल) मर गई थीं, उनके पिता (ससुर) मर गए थे उनके पति ने मुख्यमंत्री रहते हुए रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं की।कल शनिवार को सांसद ने सफाई देते हुए कहा कि उनका कहने का आशय था कि चार बार सैफई परिवार से लोग मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने इटावा के लिए रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं की, तब क्या मर गए थे। इसे लेकर सप जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य ने डिंपल यादव के लिए की गई अमर्यादित टिप्पर्ण को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश के चचेरे भाई जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव ने कहा, यहां की जनता भाजपा के सांसद को नकारती जा रही है।

समाज के सभी वर्गों को समर्पित है भाजपा सरकार : नीरज सिंह

लखनऊ। लखनऊ स्थित कैसरबाग सब्जी मंडी में सोनकर समाज द्वारा आयोजित सामाजिक बैठक के मंच से मुख्य अतिथि नीरज सिंह ने सभा के मध्य आगामी चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए देवतुल्य जनता-जनार्दन से लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से राजनाथ सिंह को कमल का बटन दबाकर पूर्ण बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा की हमारी पार्टी को सिर्फ वादों की नहीं, कर्मों की भी पहचान है। उन्होंने सोच ईमानदार, काम दमदार, लखनऊ बोले 5 लाख पार, फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ जनता का आवाह्न किया अंत में उन्होंने कहा की आज भारत देश सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं विदेश से भी जुड़ रहा है, और सोनकर समाज ने सदैव राजनाथ सिंह को समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व वाली भाजपा सरकार गरीब, युवा, किसान, महिला और वंचित वर्ग को समर्पित है।

पूर्ण बहुमत के लिए 273 सीट चाहिए, कांग्रेस के पास तो इतने उम्मीदवार ही नहीं: योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन चुनाव प्रचार करने अमेठी में पहुंचे। जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपने 2019 मे क्रांतिकारी फैसला लिया, जिसकी गूंज लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दी। सीएम योगी ने एक बार मोदी सरकार, अबकी बार 400 पार का नारा देते हुए कहा कि पीएम के पक्ष में सुनामी चल रही है। पूर्ण बहुमत के लिए 273 सीट चाहिए। कांग्रेस के पास तो इतने उम्मीदवार ही नहीं हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज पूरे देश में मोदी लहर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है।

पुख्ता इंतजाम के बीच आज होगा मतदान

चौथा चरणः मतदान की तारीख १३, सीट १३, सांसद बनेंगे १३

लखनऊ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर कल 13 मई को मतदान होगा। कल वे13 उम्मीदवार जीत कर सांसद बनेंगे जिनपर मतदाताओं की मेहरबानी होगी। आज निर्वाचन आयोग की ओर से पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथ के लिये रवाना कर दिया गया।कल सोमवार को 13 सीटों पर मतदान होगा। ये 13 लोकसभा सीटें क्रमशः शाहजहाँपुर सु., खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोइ सु., मिश्रिख सु., उन्नाव, फरूर्खाबाद, इटावा स्., कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच सु. हैं। इन 13 सीटों में आठ सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और पांच सीट सुरक्षित है। यह 13 सीटें प्रदेश के शाहजहॉपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, फरूर्खाबाद, एटा, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज व बहराइच सहित 13 जिलों के तहत आती हैं।इन 13 लोकसभा सीटों के साथ ही शाहजहांपुर जिले की ददरौल

विधान सभा पर हो रहे उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। इन 13 लोकसभा सीटों पर 130 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। शाहजहांपुर स्.सीट पर 10, खीरी सीट पर11,धौरहरा सीट पर12, सीतापुर में आठ, हरदोई सु.सीट पर12, मिश्रिख सु.सीट पर 9, उन्नाव सीट पर नौ, फरूखाबाद सीट पर आठ, इटावा सु. सीट पर आठ, कन्नौज सीट पर 15, कानपुर सीट पर 11, अकबरपुर पर नौ, बहराइच सु.सीट पर10 प्रत्याशी हैं। कन्नौज में सर्वाधिक 15 उम्मीदवार हैं। 13 सीटों पर 26588 मतदान केंद्र हैं। 1 करोड़ 31 लाख 82 हजार 341 पुरुष वोटर, 1 करोड़ 15 लाख 63 हजार 739 महिला वोटर व 947 थर्ड जेण्डर वोटर हैं। मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 47 लाख 47 हजार 027 है।सर्वाधिक मतदान केंद्र 2498 उन्नाव में हैं।चौथे चरण की कई सीटों पर धुरंधरों के बीच मुकाबला है।सबसे अहम चुनाव कन्नौज है। यहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मुकाबले भाजपा

के सांसद सुब्रत पाठक हैं। 1998 से लेकर 2014 तक इस सीट पर सपा का कब्जा रहा उन्नाव में सांसद स्वामी साक्षी महाराज के खिलाफ सपा की अन्तू टंडन हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में अन्तू टंडन उन्नाव से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंची थीं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के स्वामी साक्षी महाराज ने जीत दर्ज की।इटावा लोकसभा सीट पर भाजपा को पहली दफा 1998 में कामयाबी मिली जब सुखदा मिश्रा जीतकर लोकसभा पहुंचीं।1999 में सपा के रघुराज सिंह शाक्य सांसद चुने गये। 2004 में भी वह सीट को बचाने में कामयाब रहे। 2009 में सपा के प्रेमदास कठेरिया जीते लेकिन 2014 में मोदी लहर भाजपा के अशोक दोहरे और 2019 रामशंकर कठेरिया एमपी बने। भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है।सपा के जितेंद्र दोहरे मैदान में है।बसपा ने शारिका सिंह बघेल को

earnest, buzzing a reminder, "Be vigilant,

be safe." This would snap the deer back to

reality, their eyes widening briefly with un-

derstanding as they moved to more secure

Slowly, the deer, who often let their guard

down, grew to rely on Bizzie's steady reminders. They began to see her as more

than just a minor buzzing figure; she be-

came their watchful guardian, a small bee with a heart larger than life and a dedica-

tion even more immense. For Bizzie, this

role brought a profound sense of purpose

and joy. She reveled in her days, now filled

with the important task of protecting these

graceful, though sometimes forgetful, crea-

But as Bizzie continued her vigilant watch,

coming than the deer. The lumbering sloth

penchant for honey raids, eyed her with an

indifference that bordered on disdain. Un-

like the deer, he needed no warnings; his

survival hinged on his own strength and

"Little bee," he rumbled, his voice thick

with molasses, "your buzzing and flitting

hold no weight with me. I tread my own

path, and no danger in this forest holds

Despite her efforts, Bizzie could not

The sloth bear was an island unto him-

self, seeing no use in her warnings or the

As the sun dipped below the horizon, casting the forest in a warm ember glow.

Bizzie returned to the deer, her heart heavy

with the sting of rejection. She had made a

difference with the deer and the monkeys,

but the sloth bear's dismissal was a sober-

ing reminder that her journey was paved

with challenges she had yet to overcome.

Her guest to protect the forest and its in-

habitants was far from over. Tomorrow was

another day to learn, to grow, and to con-

tinue her buzzing symphony of vigilance.

she encountered a creature far less wel-

bear, known for his solitary ways and his

Bear in mind

keen instincts.

sway over me."

bridge the gap.

alliances she had forged.



FROM SKY TO SEA: HOW BIRDS INSPIRE TEAMWORK

uring a calm and peaceful evening, while watching the sunset, have you ever noticed groups of birds flying high in the sky? If yes, then you must have noticed that many groups fly in a shape that resembles the English alphabet "V".


There's an old African proverb which says, "If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together." This idea is demonstrated well by birds such as flamingos who travel long distances, covering thousands of kilometers.

But have you thought about why they fly like this? Is there a reason for such particular pattern?

When a bird flaps its wings, it creates a swirling wind called a rotating vortex. This swirling wind pushes some air down behind the bird and some air up and to the sides. This makes special areas in the air called upwash zones and downwash zones, where the air flows either up or down.

If a bird flies in one of these zones, it gets a boost from the air and doesn't have to work as hard to stay up. That's why birds in a group can glide behind the leader without flapping their wings as much. They're catching a free ride on the air!

This way, birds can get the most out of this flying pattern while using less



energy from flapping their wings.

Another interesting thing is, there's no one bird that always leads. A study by Oxford University found that a bird spends about one-third of its time flying behind another bird and about the same amount of time leading the group. This shows how well the birds work together as a team.

In military circles, they have a special name for this flying pattern: the 'Vic' formation. You'll often spot it in thrilling air shows too. But what's really fascinating is where this idea came from originally.

It all started with observing those clever bird flocks that have captured our admiration for ages!

Imagine, long before airplanes and fancy maneuvers, birds were already mastering the art of efficient flying. Their teamwork and coordination inspired humans to adapt this formation for our own purposes, like in the military and in air shows.

It's a fantastic example of how nature can teach us some of the best lessons!

Do you want to be a writer?

Here are some fun story prompts for the Booktern issue of of June 24.

WHAT DO YOU DO NEXT?

- Pick a prompt
- Write a story without taking any help from AI.
- Send it to us on admin@booktern.com before 25th May, 24
- We will publish selected stories in the June issue. We also conduct storywriting workshops online to help you write stories.

PROMPT 1: MAGICAL STORYTELLER

In the heart of Littleton village, there's a quaint shop named "Chamatkari Kahaniyan" (Magical Stories). Inside, there's a wise magician named Mithranath who weaves enchanting tales. One sunny afternoon, curious children-Raj, Priya, and Arjun—stumble upon Mithranath's shop and are whisked away on an adventure. Through mystical forests and ancient palaces, they learn about bravery and friendship. As their journey ends, they realize the magic of Mithranath's stories lives within them. sparking their imaginations

PROMPT 2: THE FINAL BATTLE AT HOGWARTS (Credits to JK Rowling)

In a world gripped by darkness, Harry Potter and his friends must unite once more against the resurrected Voldemort and his dark forces. With Hogwarts as their stronghold, they journey through perilous lands, facing daunting challenges and fierce adversaries.

As they confront their fears and stand together against the darkness, they discover that their true strength lies in friendship and love. In the epic showdown at Hogwarts, Harry and Voldemort engage in a final duel, where courage and sacrifice ultimately triumph over evil.

With Voldemort van-

quished and peace restored, Hogwarts shines brighter than ever, a testament to the enduring power of hope and unity.

Deer, oh Deer!

Ith the newfound respect and knowledge from the monkeys, Bizzie's iridescent wings vibrated with newfound confidence. She plunged deeper into the lush green embrace of the forest, her mission burning brighter than ever. Her destination – a sun-dappled clearing filled with deer, creatures renowned for their elegance and, unfortunately, their fleeting memory.

The deer, their coats glistening in the sunlight, nibbled on the grass in a tranquil manner. They moved gracefully, a dance of nature in itself. Bizzie, however, noticed something more in this peaceful setting. The deer's calmness wasn't just because of their serene environment; it was also because they momentarily forgot about the lurking dangers.

Curiosity buzzing in her tiny antennae, Bizzie approached. "Good deer," she began, her voice a delicate mix of caution and hope, "I am Bizzie, a bee with a vision. I wish to understand and protect our forest, and I believe I can help you stay alert to the dangers you so swiftly forget."

The deer listened with a kind of peaceful detachment, their skepticism as clear as the babbling brook nearby. Not from mistrust, but from the ephemeral nature of danger in their minds. The eldest stag, his voice as gentle as the breeze, finally replied, "Little bee, we live in the sunlit moment, and danger is a flitting shadow for us. Your intentions are clear, but how you can aid our tribe remains hidden."

After the eldest stag expressed his gentle skepticism, Bizzie felt a flicker of disappointment but also a spark of determination. She recognized this as a challenge, a chance to prove her worth. So, with a resolve as strong as the flowing stream, she decided to take on the role of the deer's guardian, even if they were yet to fully believe in her.

Determined to demonstrate her value, Bizzie leapt into action, her small size and quickness becoming her greatest assets. Like a nimble sentinel, she weaved through the trees, keeping a vigilant eye on the surroundings and alerting the deer to the Tiger's hidden presence, particularly when they became complacent.

roundings and alerting the deer to the
Tiger's hidden presence, particularly when
they became complacent.

Over time, as the days melted into weeks,
Bizzie's presence among the deer transformed from a fleeting curiosity to a staple of their daily life. Her burz became a soft



Nature's wisdom: For human challenges

'Thrills': Protective shield! Vellus hair refers to the fine. short hair that covers our bodies. When these hairs stand upright, we often describe the sensation as having "thrills." Thousands of years ago, primitive humans likely had a specific purpose for this phenomenon. Over time, as human bodies evolved, this purpose diminished. However, some animals and plants still retain specialized structures related to these "thrills."

The numbat, a marsupial native to Australia, has an interesting adaptation related to its skin. Unlike other marsupials, numbats lack a stomach pouch and are not noc-

turnal. They also lack a thick fur layer like kangaroos. Instead, numbats have clusters of tiny "romas" (hair-like structures) all over their bod-

Numbats feed on very tiny insects, which is not a sufficient diet to produce the required amount of heat in their body. So they have a special arrangement on their skin. They have clusters of vellus hair or 'roma's on their body.

The skin between these clusters of "romas" is exposed to direct sunlight, helping regulate body temperature. On cold days, numbats' "thrills" come into play. These structures trap warm air near the skin, preventing heat loss. When cold winds blow, the "romas" tense up, creating a

warm layer that shields the body from the cold.

Alpine Edelweiss, a plant genus, also exhibits a similar structure. The network of "romas" on its outer cover fades when sunlight falls on it, trapping UV rays and redistributing heat. This warm layer helps the plant survive in cool conditions and even stores humidity from the air.

Researchers are currently exploring whether the unique properties of alpine edelweiss as well as hair on numbats can be harnessed to create safety mechanisms for organisms or processes vulnerable to UV rays. The natural defense against UV radiation could potentially benefit various applications.

Efforts are underway to uti-



lize the protective adaptations seen in both numbats and alpine edelweiss. These adaptations help regulate temperature and shield against environmental factors such as air temperature, wind, sunlight, and humidity.

Scientists are actively studying how to enhance hu-

man comfort by incorporating the protective "roma" shield found in these natural adaptations. Applications range from clothing to luxurious construction materials. Exciting times ahead!



JOURNEY AROUND THE GLOBE

Hi! I am Andy, an ant. This is the story about

my adventure around the globe.

I was always curious about what was going on around the world near me. So, I decided to embark on a journey around the globe outside my anthill. But my relatives said, "Andy, the world today is not safe for us ants. You may get crushed under the feet of larger beings. So just be careful and watch your step."

I bid goodbye to my relatives and set off. I first decided to go to the Taj Mahal in Agra, India. After 12 days, I reached Agra. The quaint street markets and the scent of yummy street food left me fascinated as I admired each and every thing in the market. Soon, I was hungry and I searched for some leftovers on the

ground. After some time, I found a leftover packet of chips. I took the packet and ate the chips. After 20 minutes, I reached the Taj Mahal. It was so amazing that I couldn't take my eves off it.

After spending time in India, I decided to go to the Amazon forest in Brazil, South America. I heard that there was a flight from Delhi to Brazil. I sneaked past the security checkers and breezed through the airport. After some time, I was on the flight and off to Brazil! After 21 hours, I was in Brazil! After some time, I headed off to the forest where I saw weird birds, weird animals, weird trees, and weird insects. As I went further, I saw the mighty Amazon River. I was very thirsty and just as I

was about to drink the water, the strong water currents took me with the flow and I was petrified! Somehow I found a piece of log and climbed on it, managing to reach the shore. I thought "Whew, if I had not found the piece of

log, it would surely have been my end today."

After this horrible experience, I decided to leave the Amazon and go to the Eiffel Tower in Paris, France. I took a flight from Manaus (Brazil) to Paris and reached there after 8 hours. Mmmm...the sweet smell of croissants made my mouth water as I watched the people eating. But I wanted to see the Eiffel Tower so I headed towards it and reached there after 30 minutes. It was so huge, the image was not fitting in my eyes. I climbed up to the

top floor and I could see the whole city!! But as I looked down, I started to feel dizzy.

Somehow I managed myself and decided to leave. I took a flight back to Agra from Paris. I boarded my flight to Agra and after 12 days, I reached my anthill.

I was so happy to see my dear anthill. All my relatives welcomed me. I told all about my journey. And, this was a journey that I would always remember. This was my story about my journey around the globe. We'll meet again, friends!! Until then, this is Andy, Bye

couldn't have asked for a better life partner," ex-

ults Grusha Kapoor, who is married to the

down-to-earth affluent farmer Bikram, en-

to the story is her in-laws love her too. Grusha's

mother gushes, "We must have donated pearls in our last

birth to get a son-in-law like Bikram."

was studying law at KC College.

The first time I met him, he came

tremely handsome but also came

Where did you guys go for your

For three months, we were in the

friend zone, going out for movies and lunches. I was very clear that I wanted to marry him but he never

said anything. But after 4-5 months

married it'll be to me. I was the one

finally he said that if he ever gets

to express my feelings first, as

Bikram is a very shy person.

across as a good human being.

across as a thorough gentleman, very

chivalrous and old school. I liked him from the first day itself as he was ex-

met him?

When and how did you meet your husband?

We met through a common friend. Bikram

What was your initial reaction when you

gaged in cash crop farming. The silver lining





CJ DESK

he *Char Dham*

Yatra in Uttarakhand began on Friday, drawing thousands of people seeking spiritual solace and divine blessings. Among the pilgrims embarking on this journey was Bollywood actor Shilpa Shetty, who made her way to Kedarnath. Shilpa Shetty shared

glimpses of her sojourn on her Instagram account, capturing the tranquil beauty of snowclad mountains and her accommodation amidst the serenity of Kedarnath, accompanied by the soul-stirring anthem 'Namo Namo' from the movie 'Kedarnath'.

The commencement of this year's Char Dham Yatra coincides with the auspicious reopening of the Kedarnath Dham after a hiatus of six months.

The first *puja* at the shrine in the early hours of Friday was conducted in the name of Prime Minister Modi, marking the commencement of the pilgrimage season.

Welcoming the pilgrims, Chief Minister Pushkar Singh Dhami presided over the inaugural puja at Shri Kedarnath Dham temple, invoking prayers for the safe journey and spiritual fulfilment of all embarking on the Char Dham pilgrimage.

Would you guys fight during your courtship days?

Yes, but on very small issues.

How I Met My Partner

Husband's healing touch

Actress Grusha Kapoor discusses her relationship with her husband Bikram,

recounting how they met through a common friend and eventually married

Who is the more possessive one?

I was the more possessive one, or at least I was more vocal about it. Bikram is very possessive but doesn't express it. He's an

old soul. He is my rock of Gibraltar. Not only is he a great husband but an extremely loving and caring father too. I always seek

his advice in all matters of life no matter how trivial they are.

> Did you face any opposition during your marriage?

I am a Hindu Punjabi and he is a Jat Sikh. However, there was no opposition. My brother-in-law, who is one of the biggest criminal lawyers in India (and I was very scared of him), approved of our relationship, and he fixed the date for our marriage, February 14.

What are the qualities that attracted you

My husband is a very giving person. He is always there for everyone. I am so blessed to have him in my life. In fact, he introduced me to European cinema as he's a big movie buff. He is very passionate about cinema which rubbed off on me too.

What are your common interests? We both love nature and always talk

about settling down in a remote village in the mountains one day.

Who is a cleanliness freak between the two? I am a cleanliness and order freak whereas Bikram is very relaxed.

Who is short-tempered between the two?

I am short-tempered; Bikram is cool as a cucumber.

How has the relationship changed from the time you both were girlfriend-boyfriend to now being husband and wife?

There is more understanding and maturity after marriage. Love for me is having your hus-

band as your best friend; one who's there with you through thick and thin. In 2019, I underwent surgery but post-surgery, I was diagnosed with Septicemia. My temperature wouldn't come down from 105 for 7 days. Bikram took care of me day and night. My liver had become the size of a football. I was only on fluids. But Bikram nursed me back to health.



Actor drops big hint about a sequel of Sarfarosh **CJ DESK**


> special screening of the Aamir Khan-starrer Sarcarosh was held in the Juhu area of Mumbai.
>
> The event was attended by the starcast of the film including Aamir Khan, Naseeruddin Shah, Sonali Bendre, Pradeep Rawat and others.

The team gathered to celebrate the 25th anniversary From the team members of the film to the eminent celebrities from the entertainment world, the

screening was a starry affair. Aamir hinted at the sequel to the film at the event as he said: "I can commit about one thing, that we will definitely give it a really serious shot now of coming up with the right script and a right kind of film for it. So John you will have to get to work here.'

He added "'Sarfarosh 2' banni chaiye ('Sarfarosh 2' should be made) even I feel that." The film, which released in 1999,

is known for its riveting screenplay, slick action, stellar performances and great music.



Thursday for the cast, crew and makers of Sarfarosh as the film clocked 25 years

Sonali Bendre





Govind Namdev

Akhilendra Mishra

Director John Matthew Matthan and Naseeruddin

Shah